

₹73900
10 गांम

₹95000
01 किलो

सेखेख
76,724.08

डोलर
86,307

+224.45

-0.230

ईश्वर में हमारा विश्वास

राष्ट्रीय नवीन मेल

सत्यमेव जयते



हर पक्ष की खबर | हर पक्ष पर नजर

माघ कृष्ण पक्ष 03, संवत् 2081 | डालटनगंज (मेदिनीनगर), गुजरात, 16 जनवरी 2025, वर्ष-31, अंक-93, पृष्ठ-12 | ₹3.00 | रजिस्ट्रेशन नं: आरएनआई. 61316/94 | www.rastriyanaaveenmail.com | पेज-12 | शेख हसीना की मतीजी ने ब्रिटेन...

सड़क हादसे में बाल-बाल बचे बिरनी सीओ मधेशिया बिरनी (गिरिडीह)। बिरनी प्रखंड के अंचल अधिकारी (सीओ) संदीप मधेशिया बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बच गए। यह घटना तब हुई जब वे अपने सरकारी वाहन (जेएच 11 के-7912) से सरिया जा रहे थे। सरिया के हनुमान मंदिर के पास एक हादसा ने ओवरटेक करने के प्रयास में उनके वाहन को टक्कर मार दी। सौभाग्य से दोनों गाड़ियां धीमी गति में थीं, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में किसी प्रकार की गंभीर चोट या नुकसान नहीं हुआ।

सीबीएसई ने गैरिड की समिति बनाएगी अभिभावकों के लिए कैलेंडर नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने गुरुवार को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अभिभावकों से जुड़े कैलेंडर तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। एक नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीएसई ने सत्र 2025-26 के लिए अभिभावक कैलेंडर को विकसित करने और लागू करने के उद्देश्य से 10 सदस्य समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने की समय सीमा 15 मार्च 2025 है। इसका उद्देश्य प्रभावी अभिभावक-शिक्षक बातचीत को सुविधाजनक बनाना है। किशोरों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) और प्रारंभिक/मध्य आयु समूहों सहित विविध छात्र आवश्यकताओं का समर्थन करना है। महत्वपूर्ण पढ़ाव (जैसे, परीक्षा परिणाम, व्यवहार परिवर्तन) को संबोधित करने के लिए एक सुसंगत संचार ढांचा स्थापित करना है और जुड़ाव के माध्यम से समय पर समर्थन और हस्तक्षेप प्रदान करना है।

व्हाट्सएप से सीधे जुड़ें

1994 से अनवरत हम आपके लिए समाचारों को प्रमुखता की नीति पर कार्य करते रहे हैं। इसे और सुगम बनाने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 72094 53444 पर आप सीधे अपनी परखी हुई सच्ची खबर फोटो सहित व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपत्तिजनक बातें भेजने पर आइटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। यदि आपको अखबार की प्रति नहीं मिल पा रही है या विज्ञापन देना चाहते हैं तो इस नंबर पर 72094 03444 संपर्क करें।

आज कल

विमेंस इंडिया ने आयरलैंड को 304 रनों से हराया

पुरुषों ने न सही महिलाओं ने तो लाज रखी अपने देश की।

मैंस इंडिया का क्रिकेट में खराब प्रदर्शन

पुलिस ने 30 एकड़ में लगे पोस्ता फसल किया नष्ट

नवीन मेल संवाददाता
हेरहंज। पुलिस कप्तान कुमार को मिली गुप्त सूचना पर हेरहंज थाना पुलिस ने बुधवार को थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरांग, गुमाई सहित अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों व पलामू जिला के पांकी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में गैरमजरूआ व वन भूमि में लगे लगभग 30 एकड़ में पोस्ता की फसल को ट्रैक्टर की मदद से नष्ट कर दिया। यह कार्य थाना पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों की संयुक्त कार्रवाई के तहत किया गया है। थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया ने बताया कि पोस्ता की खेती करने वाले



व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सभी व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अभियान में हेरहंज थाना पुलिस के साथ सेरनदाग कैप के सीआरपीएफ सी/11 के जवान भी शामिल थे। थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध पोस्ता की खेती करने वालों को बक्सा नहीं जाएगा।

पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

10 जनवरी को अपराधियों ने की थी फायरिंग

नवीन मेल संवाददाता
लातेहार। जिला के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत लतदाग के पास एनएचआई के फोरलेन निर्माण में लगे कंपनी के पास फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये बांतें पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कही। वह बुधवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चंदवा स्थित लतदाग पनलैंड के पास पीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी परिसर में रंगदारी वसूली के लिए फायरिंग किया गया था। इस

अपराधी राहुल सिंह गिरोह के 7 गुर्गे गिरफ्तार



मामले में एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने इस मामले में सल्लिप सात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी राहुल सिंह के इशारे पर घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के साथी पिरा मोड़ के पास उपस्थित यात्री शेट में बैठकर कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के इशारे पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये लोग पिछले दिनों फोरलेन निर्माण कार्य में लगे कंपनी के लकड़ी टाल के पास चल रहे कार्य पर रंगदारी के लिए गोली चलायी थी।

हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर हाथियार बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में जगदीश सिंह पिता स्व कृपाल सिंह, बबलू सिंह पिता फुलेचर सिंह, मनोज सिंह पिता फागु सिंह, रंकी कुमार साय पिता संदीप साव, दीपक कुमार सिंह पिता स्व मनोज सिंह, अशोक लोहरा पिता हरीलाल लोहरा, गणेश यादव पिता उदयनाथ यादव के नाम शामिल हैं। सभी लातेहार जिला के रहने वाले हैं। इनके पास एक देशी पिस्टल, जिन्दा गोली, मोबाइल फोन व गाड़ी बरामद हुई है। छापेमारी दल में एसडीपीओ अरविन्द कुमार, चंदवा थाना प्रभारी रणधीर कुमार, ब्रज कुमार, सरोज कुमार सिंह, कुमार छत्रपाल और सशस्त्र बल शामिल थे।

आवटित कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या को ले सीएस ने की समीक्षा 34 में चार कोल ब्लॉक शीघ्र होंगे शुरू

मुख्य सचिव ने कहा

कोल ब्लॉक शुरू करने में आ रही समस्या का शीघ्र करें समाधान

रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, राज्य राजस्व में भी होगा इजाफा



ये कोल ब्लॉक ससाह भर में हो जाएंगे ऑपरेशनल

राजहरा (पलामू), तुबेद (लातार) तथा बदाय व मोड़ना जेएसडब्ल्यू (हजारीबाग)

नवीन मेल संवाददाता
रांची। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बुधवार को सरकार द्वारा आवंटित सभी 34 कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या का यथाशीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जितनी जल्द ये कोल ब्लॉक शुरू होंगे, उतनी ही जल्दी उस इलाके में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। इससे जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं राज्य सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को इसके लिए युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। वे आवंटित कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या के समाधान को लेकर समीक्षा कर रही थीं।

कोल ब्लॉक के प्रतिनिधि प्रशासन के साथ समन्वय कर दूर करें समस्या

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आवंटित कोल ब्लॉकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे ससमय संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को जरूरी कागजात उपलब्ध कराएं। प्रशासन के साथ समन्वय कर कोल ब्लॉकों को ऑपरेशनल करने में आ रही समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि जहां विधि व्यवस्था की समस्या है, वहां लोगों के बीच सद्भावना और सौहार्द विकसित करें। कोल कंपनियां साइट पर ऑफिस खोलें और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत कार्य करें और लोगों को विश्वास में लेकर जरूरी औपचारिकता पूरी करते हुए खनन की प्रक्रिया शुरू करें। वहीं, स्टेट पीएसयू के कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या के समाधान के लिए उन्होंने संबंधित सरकारी अधिकारियों को आतिरिक्त सक्रियता के साथ काम करने पर बल दिया।

मुख्य सचिव ने समीक्षा के दौरान अधिग्रहण, रेट की गणना, पाया कि अधिसंख्य आवंटित कोल मुआवजा, फॉरस्ट क्लियरेंस, भूमि हस्तांतरण, कोल ब्लॉक की जमीन ब्लॉकों को शुरू करने में जमीन

की भी समस्या सामने आई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिया कि इन समस्याओं का समाधान एक समय सीमा के अंदर करें। समीक्षा के दौरान ही 34 में से 4 कोल ब्लॉक पलामू के राजहरा, लातेहार के तुबेद, हजारीबाग जिला में स्थित बदाय और मोड़ना जेएसडब्ल्यू से अविलंब खनन करने की स्थिति स्पष्ट हुई। ये कोयला खदान सप्ताह भर के भीतर ऑपरेशनल हो जाएंगे। वहीं, अन्य नौ कोल ब्लॉकों की समस्या का भी समाधान लगभग कर लिया गया। इनका ऑपरेशन भी यथाशीघ्र होने की संभावना है। शेष बचे अन्य कोल ब्लॉकों को लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इनकी समस्या का भी समाधान कर जितनी जल्द हो सके, उसे ऑपरेशनल करें। मुख्य सचिव शेष पेज 11 पर

जीएसटी को लेकर कोयला व्यवसायी संदीप साहू के आवास पर छापेमारी



100 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का बताया जा रहा मामला

कई दस्तावेज समेत मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त किए गए

नवीन मेल संवाददाता
रामगढ़। आरा सारुबेड़ा स्थित कोयला व्यवसायी संदीप साहू के कार्यालय सह आवास में बुधवार को जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने आवास में जांच कर कई दस्तावेज समेत मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त किए। जीएसटी विभाग की टीम सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार, संयुक्त निदेशक सार्थक सक्सेना के नेतृत्व में जमशेदपुर से आई

जीएसटी की टीम ने सुबह 8:00 बजे छापेमारी शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि लक्ष्य कोल ट्रांसपोर्टिंग के निदेशक संदीप साहू द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की गई है। साथ ही, अपने परिवार के सभी सदस्य सहित अपने कर्मचारियों के नाम से पूरे भारत में 25-30 अन्य फर्जी कर्नियों खोल रखी हैं और लगातार जीएसटी चोरी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि निदेशक संदीप साहू, फिलहाल फरार हैं। जबकि, दूसरे निदेशक के रूप में उनके पिता डालेश्वर साहू से पूछताछ की जा रही है। संदीप साहू ने कुजु स्थित रेलवे साईडिंग के समीप अपना कोयला डंप यार्ड बनाया है, उसे भी फर्जी ढंग से संचालित किया जा रहा है। जल्द ही संदीप शेष पेज 11 पर

कर्नाटक में मिली राजधानी से गायब दोनों लड़कियां

दोनों सुरक्षित, पुलिस की टीम लेकर लौट रही रांची

नवीन मेल संवाददाता
रांची। राजधानी के हिंदीपीढ़ी थाना क्षेत्र से गायब दोनों लड़कियों को पुलिस ने कर्नाटक से बरामद कर लिया है। बुधवार को एक वरीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। उनके अनुसार, दोनों लड़कियां सुरक्षित हैं और उन्हें पुलिस की टीम रांची लेकर लौट रही है। हिंदीपीढ़ी की रहने वाली दोनों लड़कियां 11 जनवरी 2025 की शाम से गायब थीं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। अज्ञात आंटी चालकों पर मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने एक स्पेशल टीम का गठन कर दोनों गायब लड़कियों को जल्द से जल्द ढूंढ लाने का टास्क दिया था। जानकारी के अनुसार, तकनीकी शाखा के सहयोग से रांची पुलिस को यह सूचना मिली कि दोनों लड़कियां कर्नाटक में हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने

कर्नाटक पुलिस की सहायता से दोनों को बरामद कर लिया। दोनों लड़कियां वियत 11 जनवरी को आंध्र कार्ड को सुधार करने के लिए अपने घर से कांटाटोली स्थित मंगल टावर गई थीं। दिन में एक बजे आंध्र कार्ड सुधार करने के बाद दोनों ने एक ऑटो से हिंदीपीढ़ी स्थित अपने घर जाने के लिए बातचीत की। आंटी चालक दोनों लड़कियों को हिंदीपीढ़ी पहुंचाने के बजाय दूसरे रास्ते पर ले जाने लगा। इसपर दोनों लड़कियों को संदेह हुआ, तो उसने अपने पिता को फोनकर घटना की जानकारी दी। पिता ने बताया कि बातचीत होने के दौरान चालक ने उनकी पुत्रियों से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद दोनों पुत्रियों से उनकी बातचीत नहीं हुई। मामले को लेकर परिजनों ने अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाई थी। लड़कियों के गायब होने के मामले में गत मंगलवार को राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी भी लड़कियों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे। परिजनों को आश्वासन भी दिया था कि शीघ्र लड़कियों को खोज लिया जाएगा।

दो युद्धपोत व एक पनडुब्बी का हुआ जलावतरण एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा भारत : प्रधानमंत्री

कहा, विकासवाद की भावना से काम करता है भारत



नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में दो युद्धपोतों और एक पनडुब्बी के जलावतरण के बाद कहा कि आज का भारत दुनिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं, बल्कि विकासवाद की भावना से काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम हमारी शानदार विरासत को हमारी भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत का लंबी समुद्री यात्राओं, वाणिज्य, नौसेना रक्षा और जहाज उद्योग से जुड़ा एक समृद्ध इतिहास रहा है। इस समृद्ध इतिहास से प्रेरणा

लेते हुए उन्होंने कहा कि आज का भारत दुनिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आज लांच किए गए प्लेटफॉर्म उसी की एक झलक दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने चोल वंश के समुद्री कौशल को समर्पित आईएनएस नीलगिरि और सूरत युद्धपोत सहित नए प्लेटफॉर्मों के लांच का उल्लेख करते

हुए कहा कि यह उस युग की याद दिलाता है, जब गुजरात के बंदरगाह भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ते थे। उन्होंने कुछ साल पहले पहली पनडुब्बी कलवरी के कमीशन के बाद पी75 वॉ की छठी वाष्पीय पनडुब्बी के कमीशन का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा खुला, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन किया है। 21वीं सदी में भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और आधुनिक बनाने के महत्त्व पर जोर देते हुए मोदी ने कहा, चाहे जमीन हो, शेष पेज 11 पर

इंडिया बुनियादी शिक्षा की औपचारिकता और पब्लिक स्कूलों की रिकॉर्ड बढ़त 20 तक कोहरा और धुंध बने रहने के आसार

कभी एक समय था जब बिहार झारखंड के सरकारी स्कूलों से देश का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थी निकलते थे और आज शिक्षकों का ज्यादा समय आंकड़े बनाने में जा रहा है। हर बच्चे को धनी-निर्धन सभी समुदायों को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की सांविधानिक वचनबद्धता है। शिक्षा राष्ट्र को सभ्य, सुसंस्कृत और आत्मनिर्भर बनाने का पहला साधन है। देश के युवाओं में बढ़ती हिंसा और अनैतिक प्रवृत्ति को शिक्षा के माध्यम से रोका जा सकता है। प्राणिक भारत में प्राथमिक स्कूलों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और इसे सुधारने के उपाय कम होने जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की उपेक्षा सरकारी सरकारों में की है। बड़ी संख्या में प्रहरी स्कूलों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। गरीबी-अमीरी में, ग्रामीण-शहरी शिक्षा में भेदभाव गहरा हुआ है। वर्ष 2021-2022 में की गई स्कूलों की गणना के अनुसार, देश में कुल दस लाख, बाईस हजार, तीन सौ छियासी सरकारी

स्कूल हैं, तथा तीन लाख, पैंतीस हजार, आठ सौ चौवालीस निजी स्कूल हैं। प्रहरी स्कूलों में 50 वर्षों से अधिक समय में इतनी संख्या में खड़े हो पाए और दो दशकों से लगातार गिरावट के शिकार होकर इस अंजाम तक पहुंचे कि आज सैकड़ों स्कूल शिक्षक विहीन हो गए हैं। जबकि निजी स्कूलों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूडयस प्लस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) की 2022-23 की रिपोर्ट में झारखंड के स्कूलों की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 7,642 स्कूलों में एक ही शिक्षक सभी कक्षाएं लेते हैं और सभी विषय पढ़ाते हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन स्कूलों में कुल 3.78 लाख बच्चे नामांकित हैं, जिनका पठन-पाठन केवल एक शिक्षक के भरोसे है। शिक्षकों की कमी का असर छात्रों की पढ़ाई पर भी देखने को मिलता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार, जहां शून्य अवधि में शून्य नामांकन हुआ। एक ही बच्चे के नामांकन नहीं होने के बाद भी इन स्कूलों में 1,368 शिक्षक कार्यरत हैं।



छात्र-शिक्षक अनुपात 27 प्रतिशत है। इस मामले में झारखंड से खराब स्थिति सिर्फ बिहार की है, जहां यह अनुपात 42 है। प्रति स्कूल शिक्षकों की औसत संख्या का बात करें तो झारखंड में प्रति स्कूल औसत पांच शिक्षक कार्यरत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति स्कूल औसत छह शिक्षक कार्यरत हैं। इस मामले में झारखंड अन्य राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के साथ एक ही प्रति स्कूल औसत पांच

शिक्षक ही कार्यरत हैं। सबसे पीछे मेघालय है, जहां प्रति स्कूल औसत चार शिक्षक ही कार्यरत हैं। रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया है कि ऊंची कक्षाओं में जाते ही बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर बढ़ती जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में फाउंडेशन स्तर पर 30, मिडिल में 83 तथा माध्यमिक में 41 प्रतिशत है। राजनता अपने बच्चों को या तो अंग्रेजी माध्यम के महंगे निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या विदेशी स्कूलों में भेज चुके हैं। ग्रामीण भारत में किसानों, कृषि मजदूरों और पिछड़ी कामगार जातियों, अनुसूचित जातियों एवं अजन जातियों के अधिसंख्य बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूलों पर निर्भर करती है। इन कामगारों का देश की भीतरी समृद्धि, बाढ़ सुरक्षा और सभी सेवाओं में प्रमुख योगदान रहता है। इनकी बौद्धिक शक्तता ही राष्ट्र की आतिरिक्त शक्ति बनती है। ये अगर शिक्षा के भेदभाव की शिकार होंगी, तो असंतोष और अविश्वास के वातावरण में जीवन निर्वाह करेगी। हम चीन, जापान, कनाडा की प्राथमिक शिक्षा देख सकते हैं कि विदेशी छात्रों से वे भले ही मोटी

रकम फीस के रूप में वसूलते हैं, परंतु अपने देश के बच्चों को एक समान निःशुल्क और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देते हैं। भारत में निजी शिक्षा-संस्थाएं न्यूनतम स्तर पर भी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाती हैं। वे डोनेशन कैपिटेशन फीस की कोई रसीद तक नहीं देतीं, जिससे के आयरकर चोरी से सरकार को करोड़ों के राजस्व की क्षति होती है और रांची में स्कूल के समय कोचिंग चलाते हैं। मात्र धनलोपुत्पाता से भरे संस्थान त्याग और कल्याण का आदर्श नहीं सिखा सकतीं। निजी स्कूलों की फीस दे पाना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। झारखंड के 103 सरकारी स्कूल बिना विद्यार्थियों के चल रहे थे। इनमें से कई स्कूलों में शिक्षक भी नियुक्त हैं, जिन्हें सरकार वेतन भी दे रही है। इनमें से अधिकतर उत्कर्मित विद्यालय हैं। इन्हें शिक्षा गारंटी केंद्र के तहत प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में अपग्रेड किया गया है। जिन स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं है, उनमें कई हाइस्कूल भी शामिल हैं। इन 103 सरकारी स्कूलों में से 13 में फ्रिजहाल 22 शिक्षक कार्यरत थे। सीएस स्कूल ऑफ एक्सलेंस को 160 करने की घोषणा से आस बंधी है पर मॉडल दूर है।

10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डालटनगंज का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बोकारो का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस संबंध में रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड हजारीबाग में दर्ज किया गया। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 27.6 डिग्री पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान

एक नजर

दो आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

नीलांबर पीतांबरपुर। एससी एसटी कांड के दो नामजद आरोपी नामजद ग्राम-झगरपुर निवासी, गुड्डू सिंह 26 वर्ष पिता नारायण सिंह, रामनाथ सिंह 74 वर्ष पिता स्व. छटन सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों आरोपी एससी एसटी कांड के प्राथमिक अभियुक्त थे।

मुखिया ने निजी खर्च से गरीबों के बीच कंबल बांटे

नावा बाजार। कंडा पंचायत मुखिया सह नावा बाजार मुखिया संघ उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने ठंड को देखते हुए क्षेत्र में अपने निजी खर्च से घर-घर जाकर वृद्ध, दिव्यांग, विधवा व जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया जा रहा है। मुखिया ने अपने निजी खर्च से बुधवार को कंडा व बनौधा ग्राम में घर-घर जाकर जरूरत मंद लोगों के बीच 100 कंबल वितरण किया। मौके पर मुखिया नरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी कंबल वितरण का सिलसिला जारी रहेगा। वह स्वयं हर घर में जाकर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करेंगे। बुधवार को 100 कंबल कंडा व बनौधा ग्राम में जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि मंडल राम, वार्ड सदस्य विजय रवि, चंदन पासवान, रामप्रवेश सिंह, मनीष सिंह, नीतीश चंद्रवंशी, गणेश साव, गुड्डू भारतीय, अरविंद यादव समेत अन्य मौजूद हैं।

कोहरे ने बढ़ाई ठंड, दोपहर बाद मिली राहत



नवीन मेल संवाददाता मोहम्मदगंज। प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मंगलवार को देर सुबह ही कोहरा का प्रभाव कम पड़ गया था। इससे ठंड से राहत भी लोगों को मिली। मकर संक्राति त्योहार राहत भरे मौसम के बीच मनाया गया। पंसा और भीम चूल्हा मेला का लोगों ने खुलकर आनंद उठाया। इसके बाद दिन ढलते ही

सर्द हवाओं ने जल्दी घरों में सिमटने और गर्म लिबास में लिपटने को विवश कर दिया। बुधवार को दोपहर बाद धूप तो निकली, मगर बादलों और धुंध की आंख मिचौली के बीच सर्द हवाओं से कनकनी बनी रही। ऐसे में किसानों ने पाला के प्रभाव से

बाजार की रफ्तार पड़ी धीमी
कम दृश्यता व कोहरे से जनजीवन के साथ ही रेल, सड़क और व्यावसाय की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। बताया जाता है कि ट्रेनों का परिचालन फॉण सिग्नल के सहारे सीमित गति में किया जा रहा है। सड़कों पर इसकी व्यस्था नहीं होने की स्थिति में वाहनों के आवागमन को लेकर चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। वहीं, बाजारों में एक बार फिर से लोग विशेष जरूरत पर ही पहुंच रहे हैं। इससे कारोबार भी प्रभावित हो गया बताया जाता है। लोगों का कहना है कि पहले के वर्षों में मकर संक्राति के बाद से सर्दी का एहसास कम होने लगता था। मगर इस वर्ष इसके बाद भी शून्य दृश्यता व कोहरे के लगातार प्रभाव को देखते हुए इसके और आगे बढ़ने की संभावना बढ़ गई है।

किसानों ने पाला के प्रभाव से रबी फसलों के भारी नुकसान की संभावना जताई है। स्थिति ने अच्छी पैदावार को लेकर उनकी चिंता बढ़ा दी है। बताया गया कि पहली जनवरी से मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच बुजुर्ग, बच्चों और बीमारों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है। गर्म कपड़ों और ओढ़ना के वगैर घरों से बाहर निकलना जोखिम भरा बन गया है। ठंड से राहत के लिए रुम हीटर, अलाव और अंगीठी जरूरत बन गई है। मवेशियों की देखभाल पशुपालकों की चिंता और परेशानी का कारण बन गया, बताया जाता है।

मारपीट में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज



नवीन मेल संवाददाता हुसैनाबाद। थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव निवासी कांति देवी ने हुसैनाबाद थाना को आवेदन देकर छह लोगों के खिलाफ मारपीट करने व आपभूषण छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने थाना को दिए आवेदन में कहा कि 13 जनवरी को बटवारा को लेकर बैठक बुलाई गई थी। व्यस्तता की वजह पंचायत के मुखिया बैठक में शामिल नहीं हुए। मुखिया के नहीं आने की वजह संबंधियों के सुझाव पर आपसी सहमति से बटवारा कर लिया गया। दूसरे दिन कांति देवी व उनके पति


रंजीत प्रजापति के साथ बिहार के औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुम्बा थाना क्षेत्र के लक्ष्मण प्रजापति, मनदीप प्रजापति, लाल मुनि देवी, नावाडीह निवासी सुशीला कुंवर व प्रीति कुमारी ने लाठी डंडे से मारपीट की व सोने का लॉकेट, कान की बाली, धान बेच कर रखा गया करीब 50,000 रुपया ताला तोड़ कर निकाल लिया है। आवेदन के आधार पर हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रखंड कार्यालय की सुरक्षा में लगे दो होमगार्ड के जवान

हैदरनगर। प्रखंड कार्यालय और परिसर हैदरनगर में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से दो होमगार्डों की नियुक्ति की गई है। इसमें नौडीहा बाजार के रहने वाले होमगार्ड रोहित कुमार राय व अंशुमान कुमार शामिल हैं। बीडीओ विश्व प्रताप मालवा ने बताया कि कार्यालय अर्थात् में होमगार्डों को मुख्य गेट पर ही पूरी सुरक्षा के साथ ड्यूटी करनी है। यहां किसी भी कार्य से आने वाले ग्रामीणों को सर्वप्रथम अपना नाम व पता होमगार्ड के पास उपलब्ध पंजी में दर्ज करना होगा। शांति व्यवस्था कायम रखने में सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी सहयोग करने को कहा गया है।

एटीएल-एफडीपी सफलता पूर्वक संपन्न

नवीन मेल संवाददाता नीलांबर पीतांबरपुर। एआईसीटीई-एटीएल प्रयोजित फेकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता का जीईसी पलामू (गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, पलामू) में सफलता पूर्वक समापन हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह के एफडीपी में देशभर के 450 से अधिक शिक्षकों, शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। अंतिम दिन एमएनआईटी भोपाल के डॉ. तिकेन्द्र नाथ वर्मा ने जैव ईंधन की विभिन्न पीढ़ियों पर एक व्याख्यान दिया। उनके सत्र में प्रतिभागियों को जैव ईंधन की उन्नत ऊर्जा समाधान में भूमिका के बारे में जानकारी मिली।



इसके बाद आयोजित समापन सत्र में जीईसी पलामू के प्राचार्य ने अपनी अंतिम टिप्पणियों में एफडीपी को संबोधित किया। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग और कार्यक्रम समन्वयकों डॉ.अभिषेक शर्मा और डॉ. मुरली मनोहर को एफडीपी के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के सह-समन्वयक डॉ. मुरली मनोहर ने अंत में धन्यवाद

एंटीरैबीज व एंटीवैमन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं सीएचसी भवन: नाम बड़े और दर्शन छोटे

► बेहतर इलाज के लिए जाना पड़ता है 20 किमी दूर

नवीन मेल संवाददाता मोहम्मदगंज। सिंचाई विभाग की भूमि पर प्रखंड कार्यालय के समीप में बना सीएचसी भवन नाम बड़े और दर्शन छोटे कहावत को चरितार्थ कर रही है। जानकारी के अनुसार 16.5 करोड़ की लागत से 30 बेड के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन के चार साल बाद भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया नहीं जा सका है। कुछ ही मामले में इस केंद्र की उपयोगिता सार्थक साबित होती बताई जाती है, वह हैं, संस्थागत प्रसव व मामूली रोगों की जांच कर देना की उपलब्धता। जबकि गंभीर प्रसव पीड़िता, दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों और अन्य मरीजों के अलावा विप्ले जीव-जंतुओं के काटने के बाद जख्मियों को हुसैनाबाद अथवा मेदिनीनगर में ही बेहतर इलाज मिल पाता है। जबकि इस क्षेत्र में अक्सर खासकर, पागल कुत्ते और सांप के काटने की घटनाएं अक्सर सामने



सरकारी राशि का हो रहा दुरुपयोग
सीएचसी भवन का निर्माण ही बिना प्रशासनिक स्वीकृति के किया गया है। यही वजह है कि प्रावधान के अनुसार इसमें चिकित्सक और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिलहाल, इसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में संचालित किया जाता है। जिसमें केंद्र सरकार के प्रावधान के अनुसार एक सीएचओ, दो एएनएम, एक एमपीडब्ल्यू से सामान्य रोगों की जांच कर देना का काम लिया जाता है। इसमें अलबत्ता, कुछ माह पहले तक डा.विनोद कुमार सिंह की प्रतिनिधुक्ति की गई थी। जिनका तबादला हो गया है। इस प्रकार देखा जाए तो 8 पंचायतों के बीच 43 गांवों की 55 हजार की आबादी बेहतर स्वास्थ्य सेवा के मामले में बाहर के ही सरकारी अथवा निजी अस्पताल पर निर्भर है। इस सीएचसी भवन में 30 बेड, ऑपरेशन थियेटर, ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड के साथ ही चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर आवासीय भवन निर्माण किया गया है। ऐसे में सारी सुविधाएं और पूरी बिल्डिंग महज दिखावा की वस्तु और सरकारी राशि का दुरुपयोग भर साबित होकर रह गई है, यह कहना गलत नहीं है।

पूर्व सैनिकों ने मनाया 77वां सेना दिवस, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

नवीन मेल संवाददाता हुसैनाबाद। पूर्व सैनिक सेवा परिषद की हुसैनाबाद इकाई ने कार्यालय में बुधवार को भारतीय सेना दिवस मनाया। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट प्रेमतोष प्रसाद ने की। संचालन पूर्व सैनिक सुधीर कुमार सिंह ने किया। समाहोह में मुख्य अतिथि भूमि उपसमाहार्ता सह एसडीओ गोरग महतो तथा विशिष्ट अतिथि बीडीओ सुनील वर्मा, कर्नल (डी.) संजय कुमार सिंह मौजूद थे। सेना दिवस की शुरुआत दीप जला कर व भारत माता वंदन, शहीद जवानों को पुष्प अर्पित करते हुए वंदे मातरम के साथ की गई। इस अवसर पर स्कूल के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि ने कहा कि वीर शहीदों की बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही थल सेना दिवस पर पूर्व सैनिकों की कार्यों की सराहना की। 26 जनवरी को छात्र-छात्राओं के लिए



अनुमंडल स्तरीय प्रतियोगिता कराने का भरोसा दिया। संगठन संरक्षक कर्नल डॉ. संजय कुमार सिंह ने इस तिथि का महत्व को बताया। उन्होंने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हम सभी पूर्व सैनिक मिलकर हुसैनाबाद के युवाओं को भारतीय सेना में जाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। नवजवानों को कैरियर बनाने में हमारा संगठन सार्थक सहयोग कर रहा है। उन्होंने सभी छात्रों को एक सैनिक की तरह सदैव

तत्पर रहने की सलाह दी। समारोह को संगठन के जिला उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट प्रेमतोष प्रसाद ने वीर शहीदों के गुणगान करते हुए वीर नारी, अतिथियों स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेटों एवं सभी सैनिकों को स्वागत करते हुए कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेना में हम सभी वतन के लिए जाते न की वेतन के लिए। इस सोच से अपने क्षेत्र के पेशानों की समस्याओं की समाधान एवं बच्चों के शिक्षा दीक्षा के कार्यों में हम सभी लगे हैं। मौके पर कैप्टन दुःखन सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक सीताराम सिंह, कैप्टन आरसी मेहता, सुवेदार सत्येंद्र ठाकुर, सुवेदार अशरफ़ी पाल, यदुनंद ठाकुर, गौरी शंकर ठाकुर, प्रसाद सिंह, विमन चौधरी, लल्लू पासवान, दिलीप मेहता, रामटहल मेहता वीर नारी प्रेमलता कुंवर, मनोरमा कुंवर के अलावा स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे।

मुखिया ने 130 गरीबों को बांटे कंबल

हैदरनगर। प्रखंड के हैदरनगर पश्चिमी पंचायत के विभिन्न टोलों से आए कुल 130 गरीब असहाय ग्रामीणों को कंबल का वितरण मुखिया शहनाज परवीन ने किया। लाभुक रौशन खान, बाबू भाई, राजू खान आदि ने बताया कि इस कंपकपाती ठंड में लंबे समय से कंबल मिलने का इंतजार था। इससे इन गरीबों को काफी राहत मिल सकेगी। मौके पर उपस्थित पंचायत समिति सदस्य गुलशन आरा व फरहाना खातून, समाज सेवी सज्जू खान, मो. राशद आदि ने वितरण कार्य में सहयोग कर कहा कि उनके स्तर पर कई टोलों पर अलाव जलाने की भी मुक्तमल व्यवस्था की गई है। बीडीओ विश्व प्रताप मालवा ने बताया कि सरकार और जिला प्रशासन से कंबल का आवंटन होते ही सभी पंचायतों में संबधित मुखिया और अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम जरूरतमंदों के बीच वितरण शुरू कराया गया है। उन्होंने सभी मुखिया से अपने पंचायत में वास्तविक लाभकों को विहित कर इस ठंड में कंबल देकर अदिलंब रहते पहुंचाने में सहयोग करने को कहा है। इसके अलावा इन गरीबों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आ रही अड़बटों को भी तत्काल दूर करने का निर्देश दिया गया है।

आती रहती हैं। सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। बताया गया कि सोमवार को एक ही दिन में एक पागल कुत्ते ने अन्न तक चार लोगों को काटकर जख्मी कर दिया था। इनमें से एक आर्यन कुमार (4 वर्ष) की तो गर्दन ही पकड़ लिया

था। परिजनों के शोर मचाने पर उसे छोड़ा था। इसके अलावा विमलेश कुमार, रंजू देवी और मुनि रजवार को भी कुत्ते ने काटकर जख्मी कर दिया है। बताया गया कि सभी का इस केंद्र में प्राथमिक उपचार ही किया जा सका। बाद में बेहतर

इलाज के लिए रेफरल कर दिया जा। कहा जाता है कि इस केंद्र में एंटीरैबीज और एंटीवैमन इंजेक्शन के रिपॉर करने की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में जानने के लिए लगातार प्रयास के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला।

शिव मंदिर में शुरू हुआ मांगलिक कार्य

नवीन मेल संवाददाता मोहम्मदगंज। मकर संक्राति के साथ ही मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही भीम चूल्हा शिव मंदिर में भी बुधवार को शादी की रस्म अदायगी पूरी की गई। पंडित गंगा तिवारी ने हिंदू रीति-रिवाज से वर-वधू को परिणय सूत्र में बांधने का उपक्रम किया। उन्होंने बताया कि धार्मिक पंचांग के अनुसार मांगलिक कार्यों को लेकर मकरसंक्राति के दिन से



सुदिवस शुरू हो गया है। भीमचूल्हा शिव मंदिर में भी इसकी शुरुआत टंडवा (गढ़वा) के अशरफ़ी राम के पुत्र शिव राम और पथरा

(एनटीपीसी) थाना, खैरा, औरंगाबाद) के कृष्ण राम की पुत्री रुबी कुमारी के बीच शादी की रस्म अदायगी पूरी करने के साथ हो गई है। उन्होंने बताया कि पर्वटकों और श्रद्धालुओं के साथ ही मांगलिक कार्यों को लेकर भी भीम चूल्हा की अलग पहचान व लोगों की पसंदीदा जगह बन गई है। हर साल दर्जनों ऐसे कार्यों का साक्षी ऐतिहासिक महत्व का यह धार्मिक स्थल बनता है। सीमित समय और खर्च में सारे शुभ कार्य संपन्न होने से वर-वधू दोनों पक्ष को सुविधा और सहूलियत होती है।

पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास



नवीन मेल संवाददाता हुसैनाबाद। नगर पंचायत क्षेत्र के जेपी चौक के समीप बुधवार को नगर विकास विभाग मद की राशि से पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य का शिलान्यास जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शशि कुमार और कार्यपालक पदाधिकारी तरनीश हंस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जेपी चौक से पेट्रोल पंप तक बनने वाली पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य करीब 10 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टुटू सिंह ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज के बगल में पेवर ब्लॉक का निर्माण कार्य होने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।

वैसे ईओ द्वारा हुसैनाबाद शहर में प्राथमिकता के आधार पर जन उपयोगी योजनाओं को करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण होने से शहरवासियों का इसका समुचित लाभ मिलेगा। पूर्व नप अध्यक्ष शशि कुमार ने कहा कि उनका प्रयास है कि प्राथमिकता के आधार पर शहर के सभी वार्डों में सड़क नाली, पेवर ब्लॉक आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का चुनाव नहीं होने से कई योजनाएं लंबित है। वैसे नगर पंचायत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम सभी नगर पंचायत प्रतिनिधि कुतसलित है। इसमें किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलने की बात कही है। इस मौके पर रवि कुमार, संतोष गुप्ता, सद्गुरु कंदरक्षण के प्रो.बलवीर कुमार सिंह, निखिल सिंह, वरुण सिंह, आत्मेश कुमार सिंह, बैरिस्टर सिंह, विकास कुमार, रंजीत गुप्ता, मनोज सहित कई लोग मौजूद थे।

आस्था वैदिक मंत्रोच्चारण से माहौल हुआ भक्तिमय

कलश यात्रा के साथ पांच दिवसीय महायज्ञ शुरू



नवीन मेल संवाददाता हुसैनाबाद। अनुमंडल मैदान स्थित मां तारा शक्ति दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पांच दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ जल यात्रा से किया गया। मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश यात्रा का नेतृत्व भाजपा नेता सह पूर्व विधायक कमलेश कुमार सिंह, यजमान चंदन कुमार सिंह व अजीत सिंह कर रहे थे। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल महिला पुरुष ने नगर भ्रमण किया। नगर भ्रमण के बाद देवरी स्थित सोन नदी घाट से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जलभरी की गई। जलभरी के बाद पुनः यज्ञशाला पहुंचे। कलश यात्रा के साथ पांच दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा एवं महायज्ञ की शुरुआत हो गई है। मां तारा शक्ति मंदिर महायज्ञ कमेटी के संरक्षक, भाजपा नेता सह पूर्व विधायक कमलेश कुमार सिंह, पूर्व मुखिया राम प्रवेश सिंह, मिथलेश पाठक, संयोजक सूर्या सिंह, अध्यक्ष प्रकाश लाल

24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ से 20 फरवरी से



सतबरवा ट्रेनिंग कॉलेज के छात्रावास प्रांगण में 20 से 23 फरवरी 2025 को शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन होना है। यज्ञ को सफल बनाने को लेकर बुधवार पोंची में किशक्षक कमलेश प्रसाद के आवास पर बैठक हुई। अध्यक्षता संजय कुमार ने की। यज्ञ को लेकर भूमि पूजन का कार्यक्रम 18 जनवरी 2025 को ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य सुधा कुमारी सहित प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। बैठक में सुभाष प्रसाद, वीरेंद्र साहू, कमलेश प्रसाद, सुनील गांधी एवं श्याम बिहारी प्रसाद शिक्षक, प्रशांत समेत कई लोग उपस्थित थे।

ठंड से दिनभर परेशान रहे लोग, जन जीवन रहा अस्त-व्यस्त

हुसैनाबाद। पलामू में मंगलवार की रात से ही आसमान में छाये बादलों के कारण बुधवार को न्यूनतम तापमान में करीब पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, परंतु अधिकतम तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इससे बुधवार को लोगों को दिनभर ठंड व कनकनी सताते रहे। दिनभर हलका कुहासा छाये रहने से दृश्यता कम रही। बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। एक पखवारे पूर्व से तापमान में लगातार गिरावट के कारण पड़ रही कड़कड़ाती ठंड व भीषण कनकनी ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दिनभर घना कोहरा छाये रहने से सड़क व रेल परिवहन भी प्रभावित हो रहा था। सूर्य के रौशनी परिवर्तन के कारण 16 जनवरी के बाद ही आसमान साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है।

दो मोटरसाइकिलों को टक्कर में महिला को मौत, पति और बहन घायल मेदिनीनगर। पलामू के तरहसी-मनातू मुख्य मार्ग पर बुधवार सुबह करीब 11 बजे दो मोटरसाइकिलों के आमने-सामने टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और बहन घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तरहसी उपस्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार, तीनों लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर लातेहार से बरुआशरीफ जा रहे थे। रास्ते में सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिसमें महिला खुदेजा को गंभीर सिर की चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एमएमसीएच) रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही खुदेजा की मौत हो गई। मृतका के पति और बहन, सितारा बोवी, का इलाज एमएमसीएच में जारी है। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को हल्की चोट आई और उसका इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया घटना के बाद मृतका का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है, और परिजन रो-रोकर बेहाल हैं।

सास के खेत पर जाने के बाद बहू ने खाया जहर, मौत मेदिनीनगर। जिले के नावाजयपुर थाना क्षेत्र के कसवाखांड निवासी रोहित चौहान की 22 वर्षीय पत्नी रेशमा देवी ने बुधवार को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर में कोई नहीं था। रेशमा की सास खेत गई हुई थीं। खेत से लौटने पर उन्होंने रेशमा को बेड पर तड़पते हुए पाया और तुरंत नावाजयपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गईं, जहाँ से उन्हें मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एमएमसीएच) रेफर किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एमएमसीएच में शव का पोस्टमार्टम किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, परिवार में कोई विवाद नहीं था। रेशमा के पति और ससुर गोवा में मजदूरी करते हैं। रेशमा अपने चार महीने के बच्चे के साथ सास के साथ रहती थीं। मंगलवार को उसने अपने बच्चे का इलाज कराया था। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। रेशमा की शादी 2023 में हुई थी और उसका मायका पांकी थाना क्षेत्र के सूरजवन में है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आग से झूलसी बच्ची को उपायुक्त का आर्थिक सहयोग और मुआवजा राशि का आश्वासन



नवीन खेल संवाददाता मेदिनीनगर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने बुधवार को समाह्वालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार आयोजित किया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से उपायुक्त को

अवगत कराया। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। डीसी ने बच्चों के अभिभावक को निजी सहायता और आरटीई में एडमिशन का भरपूर आश्वासन

जनता दरबार में कई मामलों का त्वरित समाधान
जनता दरबार में विभिन्न विकास, भूमि विवाद, पारिवारिक बंटवारा, अवैध कब्जा, मानदेय भुगतान और राशन से संबंधित समस्याओं का ऑनस्पॉट निष्पादन किया गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त और अपर समाह्वाली ने अपने-अपने दायित्वों के तहत मामले निपटारे।

ने छत्तपुर एसडीएम से फोन पर संपर्क कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके अलावा, उपायुक्त ने बच्चों के परिवार को निजी तौर पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इसके साथ ही, उपायुक्त ने बच्चों के शिक्षा के लिए आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा का आश्वासन भी दिया।

पुस्तक 'कोयल की धारा' पर साहित्यिक परिचर्चा आयोजित



नवीन खेल संवाददाता मेदिनीनगर। हिन्दी साहित्य भारती, पलामू के तत्वावधान में रेड रोज पब्लिक स्कूल, शाहपुर के प्रांगण में प्रो. सुभाष चंद्र मिश्र की पुस्तक कोयल की धारा की 2002 धारा पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता श्रीधर प्रसाद द्विवेदी ने की, जबकि संचालन कवि राकेश कुमार ने किया। अध्यक्षीय संबोधन में द्विवेदी ने कहा कि कोयल की धारा एक रेडियो रूपक है, जिसमें ध्वनि के माध्यम से संवाद, मनोभाव, वातावरण और दृश्य को चित्रित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे प्रो. मिश्र ने बखूबी पूरा किया है। मुख्य

अतिथि प्रेम भरीन ने हिन्दी साहित्य भारती के पुस्तक-परिचर्चा अभियान की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए उपयोगी बताया। प्रो. सुभाष चंद्र मिश्र ने बताया कि यह रेडियो रूपक आकाशवाणी डालटनगंज से 2002 में प्रसारित हुआ था और इसे पुस्तक रूप में प्रकाशित करने में उनके पुत्र प्रभात मिश्र सुमन और पौत्र मानस मिश्र ने अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर साहित्यप्रेमियों और वक्ताओं ने पुस्तक पर अपने विचार साझा किए और इसकी महत्ता को रेखांकित किया। धन्यवाद ज्ञापन रेड रोज पब्लिक स्कूल के संचालक विमल कुमार ने किया।

निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर रविवार को मेदिनीनगर। शहर के बाईपास रोड स्थित कल्याण हॉस्पिटल द्वारा 19 जनवरी को निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल जमशेदपुर से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. परवेज आलम (सीनियर कार्डियक सर्जन), डॉ. अन्वेष्ठा मुखर्जी (पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट) अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। शिविर में जांच के दौरान ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बीएमआई, ईसीजी, डॉप्टर्स की विस्तृत परामर्श सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी। सुबह 9:30 बजे से दोपहर एक बजे तक शिविर आयोजित किया जाएगा। जांच शिविर का उद्देश्य हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंदों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

आईएमडी के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित

नवीन खेल संवाददाता मेदिनीनगर। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के राष्ट्र सेवा में 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को डालटनगंज स्थित मौसम विज्ञान विभाग में पेंटिंग, स्केचिंग, आईएमडी लोगो विजय और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राएं, उनके अभिभावक और शिक्षक शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य डाकघर के हेड पोस्ट मास्टर रूपेश कुमार वर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान प्रतियोगिताओं में बनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया।



विजय प्रतियोगिता में लव पासवान, आदर्श कुमार और सुकृति पंडित ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि खेल प्रतियोगिता में अयान सैयद, अरुनी कुमारी और मनिषा कुमारी ने जीत हासिल की।

प्रधानमंत्री ने जारी किए विशेष सिक्के और डाक टिकट

मौसम विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलक्ष्य में भारत मौसम विज्ञान विभाग के दिल्ली मुख्यालय में

150 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। कार्यक्रम का संचालन वैज्ञानिक सहायक मुकेश कुमार सिंह ने किया, जबकि प्रभारी अधिकारी कृष्ण कुमार ने अतिथियों को मौसम विभाग डालटनगंज के कार्यों के बारे में जानकारी दी। गोपाल कुमार सिन्हा ने मौसम विभाग के योगदान और पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में आदित्य कुमार, विवेक कुमार और शिवम कुमार ने भी भाग लिया।

स्मार्ट मीटर के विरोध में मैदान में उतरे व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता

नवीन खेल संवाददाता मेदिनीनगर। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के खिलाफ शहर के कई व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता विरोध में उतर आए हैं। बुधवार को मेदिनीनगर के एक होटल में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन, पलामू के



बैनर तले आयोजित पत्रकार वार्ता में सामाजिक कार्यकर्ता अख्तर जमा ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उपभोक्ताओं को विश्वास में लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान के बारे में उपभोक्ताओं को कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि लोगों पर जबनर

स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं, और विरोध करने वालों को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। यह पूरी तरह से मनमानी है। अख्तर जमा ने यह भी दावा किया कि स्मार्ट बिजली मीटर अडानी ग्रुप द्वारा बनाए गए हैं और इसे केवल कंपनी को खुश करने के लिए उपभोक्ताओं पर थोपा जा रहा है। उन्होंने सरकार को

चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरंत नहीं रोका गया, तो जनता विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इसका खुलकर विरोध करें और स्मार्ट मीटर हटवा दें। मौके पर कई व्यवसायी भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया।

नीलांबर पीतांबर पब्लिक स्कूल का आठवां स्थापना दिवस धूमधाम से संपन्न



नवीन खेल संवाददाता मेदिनीनगर। सदर प्रखंड के जमुने स्थित राजेन्द्र मिश्र मेमोरियल नीलांबर पीतांबर पब्लिक स्कूल का आठवां स्थापना दिवस बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम की शुरुआत राजेन्द्र मिश्र की नौवीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण से हुई। मुख्य अतिथि

प्रथम विधान सभा के इंद्र सिंह नामधारी और विशिष्ट अतिथि परशुराम तिवारी, जेएस कॉलेज के प्राचार्य सुरेंद्र पांडेय, भाजपा नेता अविनाश शर्मा, अरुण सिंह, बलराम मिश्र, राहुल दुबे और कमलेश पांडेय ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विद्यालय के निदेशक अभिषेक मिश्रा ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों को गरीबी, अत्याचार और अन्याय से लड़ने के योग्य बनाया

सामाजिक समरसता और प्रेम का प्रतीक है मकर संक्रांति : अविनाश देव

जा सकता है। नीलांबर पीतांबर पब्लिक स्कूल इसी उद्देश्य से ग्रामीण बच्चों को कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। मुख्य अतिथि ने की विद्यालय की सराहना : मुख्य अतिथि इंद्र सिंह नामधारी ने कहा कि ग्रामीण परिवेश में कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना समाज के लिए एक सराहनीय प्रयास है। यह विद्यालय ज्ञान की दीपशिखा को प्रज्वलित कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका आकांक्षा मिश्रा ने किया। मौके पर अतिथियों ने अपने विचार साझा किए और छात्रों की प्रतिभा की सराहना की। इस अवसर पर रामप्रवेश शर्मा, अशोक मिश्रा, सुभाषचंद्र मिश्र, वशिष्ठ कुमार, पंचम वैद्य, शिक्षिका प्रीति मिश्रा, रिद्धि पाठक, अनामिका पाठक सहित सैकड़ों छात्र और अभिभावक उपस्थित थे।



नवीन खेल संवाददाता मेदिनीनगर। मकर संक्रांति के अवसर पर संत मरियम आवासीय विद्यालय, नवा टोली के परिसर में विशेष उत्साह देखने को मिला। लगभग 700 छात्रावासी बच्चों ने इस पर्व को हार्पोल्लास के साथ मनाया। चेंबरमैन अविनाश देव ने मकर संक्रांति के धार्मिक और खगोलीय महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व समाज में प्रेम, भाईचारे और

शाहपुर में श्वान नसबंदी केंद्र संचालित

नवीन खेल संवाददाता मेदिनीनगर। निगम क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर में आवारा कुत्तों तथा उनके क्रियाकलापों से निजात दिलाने के लिए श्वान बंध्याकरण केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसका रख रखाव हृदय केयर ऑफ एनिमल्स एंड सोसाइटी नामक एनजीओ करती है। आवारा कुत्तों की जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। टंड के दिनों में हर गली-मुहल्ले में आवारा कुत्ते झुंड बनाकर घूमते दिखाई देते हैं। कई बार बच्चों पर भी हमला कर घायल करने की खबर आती है। इस कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में भी कई लोग कुत्ते के काटने पर अपना इलाज कराते आते हैं। मेदिनीनगर निगम क्षेत्र के ज्यादातर लोगों को



इसकी जानकारी नहीं होने के कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जिस कारण केंद्र की शुरुआत हुई वर्षों बीत जाने के बाद भी इसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा। केंद्र का संचालन करने वाले मनीष सिंह ने बताया कि नगर निगम को मिली शिकायत के आधार पर उनकी टीम कुत्तों को रेस्क्यू कर केंद्र लाया जाता है। जिसके अगले

दिन उनकी नसबंदी की जाती है। जानकारी के मुताबिक कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए इनकी नसबंदी की जा रही है। इसके अलावा भी रोज पांच से दस कुत्ते को पकड़ कर लाया जाता है। हालांकि नगर निगम को इस केंद्र के बारे में अधिक प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि अपने गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों पर लगे हुए इसकी मदद ले सकें।

68वीं नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में पलामू के अंकित को ब्रॉन्ज मेडल

मेदिनीनगर। झारखंड सरकार और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 11 से 14 जनवरी 2024 तक बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, रांची में 68वीं अंडर-14 नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इससे पहले झारखंड शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अंकित ने चार गुना सो मीटर रिले दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर झारखंड और पलामू का नाम गौरवान्वित किया। अंकित को इस उपलब्धि पर पलामू जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर कुमार पांडे, पलामू जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजायतशरु प्रसाद सिन्हा, सचिव संजय कुमार त्रिपाठी, ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलानंद दुबे, एथलेटिक्स कोच मोनू कुमार, रिया कुमारी, रेशमा पांडे, सोनी कुमारी, प्रीति कुमारी, जीजीपीएस स्कूल के शारीरिक शिक्षक अनिल कुमार पांडे और प्रदीप कुमार मेहता, साइकलिंग संघ के सचिव सिद्धार्थ कुमार, पलामू जिला शूटिंग संघ के अध्यक्ष अमरेंद्र पाठक और सचिव अशोक कुमार सिंह, वृषु संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र प्रसाद, द्वारिका प्रसाद, खेल विभाग के सिकंदर जी और निधु उपध्यक्ष सहित अन्य खेल प्रेमियों ने शुभकामनाएं दीं।

मकर संक्रांति के साथ समास हुआ खरमास, आज से शुरू हुए मांगलिक कार्य

■ जनवरी में 10 दिन शुभ मुहूर्त, शादी-विवाह के लिए है अनुकूल
नवीन खेल संवाददाता मेदिनीनगर। मकर संक्रांति के साथ मंगलवार को खरमास समाप्त हो गया, जिसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। सनातन धर्म में खरमास का विशेष महत्त्व है, जिसके दौरान शादी-विवाह और अन्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं। पंडित मनीष मिश्रा के अनुसार, 14 जनवरी को सूर्य ने धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया, जिससे खरमास का अंत हो गया। अब शादी, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक

कार्य फिर से प्रारंभ हो गए हैं। खरमास 15 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। यह अवधि 14 जनवरी 2025 को समाप्त

नवीन खेल संवाददाता मेदिनीनगर। मकर संक्रांति के अवसर पर संत मरियम आवासीय विद्यालय, नवा टोली के परिसर में विशेष उत्साह देखने को मिला। लगभग 700 छात्रावासी बच्चों ने इस पर्व को हार्पोल्लास के साथ मनाया। चेंबरमैन अविनाश देव ने मकर संक्रांति के धार्मिक और खगोलीय महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व समाज में प्रेम, भाईचारे और

सहजकर्ता दल का तीन दिवसीय प्रशिक्षण: कार्य कुशलता में सुधार लाने की जानकारी मिली

नवीन खेल संवाददाता हंटरगंज (चतरा)। प्रखंड सभागार में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन ग्राम पंचायत विकास योजना 2025-26 के अन्तर्गत किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पंचायतों की कार्य कुशलता में सुधार लाना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देना है। मास्टर ट्रेनर द्वारा सबकी योजना सबका विकास विषय पर पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामीणों को सशक्त बनाने के लिए गरीब मुक्त और उन्नत आजीविका गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी, जल प्यापन, स्वच्छ और हरित, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, समाजिक रूप से



सुरक्षित, सुशासन समेत नौ विषयों पर योजना चयन व सफल बनाने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर बीपीओ विनोद प्रसाद गुप्ता, बीपीआरओ योगेश शर्मा, बीडीओ अरुण मुंडा, ट्रेनर शंकर दांगी, मास्टर ट्रेनर योगेंद्र यादव, पंचायत के जीपीएफटी के सदस्य, सभी पंचायत से पीएसएस व मुखिया उपस्थित थे।

नवीन खेल संवाददाता मेदिनीनगर। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और ठंडी हवाओं का असर पलामू जिले में भी साफ दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में जिले का पारा 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हालांकि, चार दिन बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। बुधवार रात से घने कोहरने के वाहनों की आवाजाही को प्रभावित किया। गुरुवार सुबह भी कोहरा और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे कनकनी बंकरार रहेगी बुधवार को दिनभर

आंशिक बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 20.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह कोहरा और बादलों के कारण ठंड और बढ़ सकती है।

कार्य फिर से प्रारंभ हो गए हैं। खरमास 15 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। यह अवधि 14 जनवरी 2025 को समाप्त

जनवरी में 10 दिन शादी के लिए शुभ
पंडित मनीष मिश्रा के अनुसार, 16 जनवरी से शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो गए हैं। इस महीने शादी के लिए 10 शुभ दिन हैं: 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, और 30 जनवरी। साल 2025 में कुल 74 दिन शादी के लिए शुभ माने गए हैं। मांगलिक कार्यों की शुरुआत से उत्सव का माहौल बनने की संभावना है, और लोग अब शुभ कार्यों के लिए तैयारियां शुरू कर रहे हैं।

हुई, जब सूर्य मकर राशि में गोचर कर गए। इस दौरान ग्रहों की स्थिति शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती।

एक नगर

जरूरतमंदों के बीच किया मच्छरदानी का वितरण

हैदरनगर। स्वामी विवेकानंद संयुक्त शाखा लपेया ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत हैदरनगर (हरीनगर) खंड के बिलासपुर मंडल डे दर्जन जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच मच्छरदानी का वितरण किया। इस क्रम उन्होंने ग्राम सड़ैया टोला तरवाडीह में लोगों के मच्छरदानी देने के साथ ही घरों और आसपास के क्षेत्रों में पूरी साफ सफाई रखने का सुझाव भी दिया। इसमें संघ के विभाग सेवा प्रमुख पल्लव देवदत्त कुमार सिंह, खंड व्यवस्था प्रमुख शिव कुमार, खंड कार्यवाह संजय कुमार मेहता, अशोक पासवान, मिथिलेश सिंह, सत्येन्द्र राम आदि शामिल थे।

सहजकर्ता दल का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू



नवीन मेल संवाददाता केदार। प्रखंड कार्यालय के सभागार कक्ष में सबको योजना-सबका विकास अभियान के तहत ग्राम सहजकर्ता दल का तीन दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ प्रमुख चंद्रवंशी देवी, बीडीओ प्रशांत कुमार और मास्टर ट्रेनर सुरेन्द्र दुबे ने संयुक्त रूप से दीप जला कर किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम मास्टर ट्रेनर सुरेन्द्र दुबे और राकेश कुमार ने सहजकर्ता दल को बताया कि सबकी योजना सबका विकास

नवीन मेल संवाददाता मेराल। प्रखंड मुख्यालय हाईस्कूल के मैदान में बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कौशल किशोर ठाकुर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर ने फीता काटकर कर किया। उद्घाटन समारोह में उपायुक्त ने ओलंपिक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र पाठक को बॉलिंग पर बल्ले से शॉर्ट लगाकर टूर्नामेंट की शुरूआत की। उपायुक्त ने परिहारा व अंजुमन शाने ए वतन टीम के खिलाड़ियों से बारी-बारी परिचय प्राप्त कर किया। उपायुक्त ने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल जगत में आज झारखंड की पहचान धोनी के नाम लेने से मिलती है। मुकेश कुमार नामक 18 वर्षीय लड़का ने चेंस में विश्व चैंपियन बनकर 13 करोड़ रुपए कमाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में



प्रतिभा निखारने की जरूरत है। जैसे प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा भी खेलों गढ़वा के तहत सहयोग देने का प्रावधान है। उन्होंने लगातार क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन कराने वाले कमेटी के लिए लोगों से जिला में रजिस्ट्रेशन कराने का सुझाव दिया। उपायुक्त ने कहा कि उनके द्वारा गढ़वा

जिला में नीति आयोग के तहत 73 खेल मैदान का निर्माण कराया गया है। उन्होंने मेराल में इस प्रकार खेल आयोजन के लिए क्रिकेट टीम कमेटी के लोगों की सराहना की। टूर्नामेंट के अध्यक्ष अतहर अली अंसारी, उपाध्यक्ष विनोद प्रसाद, संरक्षक सूर्य प्रकाश, अजय प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र गोस्वामी, जफरी

अंसारी, रेयाज अंसारी सहित लोगों ने उपायुक्त को शॉल ओढ़ाकर व बुके देकर स्वागत किया। टूर्नामेंट आयोजन में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र पाठक, झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने भी खेल के प्रति अपनी विचार को रखा। क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरूआत परिहारा की

टीम ने टॉस जीतकर क्षेत्रक्षण का निर्णय लिया। बैटिंग अंजुमन शाने ए वतन टीम द्वारा किया गया। मैच में पेशका के टीम ने 11 ओवर एक बाल में 89 रन बनाया। जवाबी पारी खेलने उतरी परिहारा के टीम ने 8 ओवर 3 बॉल पर सात विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। पीयूष कुमार को दो विकेट लेकर 29 रन बनाने पर सलीम आँटी सेंटर द्वारा मैच ऑफ द मैच दिया गया। मौके पर मेराल थाना प्रभारी विष्णु कांत, अतहर अली अंसारी, प्रमुख दीप माला कुमारी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष दशरथ प्रसाद, सूर्य प्रकाश, विनोद प्रसाद, अजय प्रसाद गुप्ता, जफरी अंसारी, मुन्ना राम, रेयाज अंसारी, सुरेंद्र गोस्वामी, कामेश्वर सिंह, नवीन जायसवाल, संजय भगत, नाथून राम, ग्यासुद्दीन अंसारी, शमीम रंगसाज, प्रमोद महाजन सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

कड़के की ठंड में खुले स्कूल



नवीन मेल संवाददाता खरौंधी। प्रखंड में बुधवार को लंबे समय बाद पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए विद्यालय खुले। स्कूल खुलने के दिन मौसम ने भी अपनी सर्द मिजाज का रुख बरकरार रखा। सुबह से ही घना कोहरा और कड़के की ठंड ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया था। गिरती ओस की बूंदों ने बारिश जैसा आभास कराया, और सूर्यदेव ने दोपहर एक बजे के बाद ही अपना दर्शन दिया। ऐसे कठिन मौसम में स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बच्चे ठिठुरते हुए विद्यालय पहुंचे,

लेकिन लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुलने की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। लगभग 20 दिनों के बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे, तो उनके चेहरों पर ठंड का असर तो था, लेकिन पढ़ाई और दोस्तों से मिलने का उत्साह भी कम नहीं था। अधिकारियों ने स्कूलों में बच्चों के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, बदलते मौसम ने न केवल स्कूली बच्चों बल्कि दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित किया। ठंड के इस मौसम में बच्चों का उत्साह यह संदेश देता है कि शिक्षा के प्रति उनकी लगन और आत्मविश्वास अडिग है।

डीईओ ने दिया प्रभार सौंपने का निर्देश

नवीन मेल संवाददाता भवनाथपुर। डीईओ ने राजकीय कृत प्लस टू हाई स्कूल के पद मुक्त पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक अंकित त्रिवेदी को 24 घंटे के अंदर विद्यालय का संपूर्ण प्रभार वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार उपाध्याय को सौंपने का आदेश दिया है। इस संबंध में डीईओ ने अंकित त्रिवेदी को आदेश पत्र सौंपा है। डीईओ ने आदेश पत्र में उल्लेख किया है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य से आपको मुक्त करते हुए दिलीप कुमार उपाध्याय, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक सह धिकासी एव वय्यन पदाधिकारी का कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया

गया है। लेकिन प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने हेतु निर्गत आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं करना एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना आपके मनमानेपन को परिलक्षित करता है। इसलिए आपको पुनः आदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत तिथि के 24 घंटे के अन्दर विद्यालय का संपूर्ण प्रभार वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार उपाध्याय को सौंपते हुए प्रभार प्रतिवेदन की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में प्रभार नहीं सौंपने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया गया जागरूक



नवीन मेल संवाददाता गढ़वा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत गढ़वा जिले के विभिन्न थानों से पकड़े गए बिना हेलमेट वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा माह 2025 में इस प्रकार के आयोजनों से जैसे स्थान जहाँ भीड़-भाड़ वाले हाट, बाजार लगते हैं, को चिन्हित कर विभिन्न प्रकार से लोगों में जागरूकता फैलाने का

आपको हक मिलता है, जिससे पुलिस और अस्पताल नहीं कर सकती है और किसी भी प्रकार के कानूनी प्रक्रियाओं से आप मुक्त रहेंगे। गुड समेरिटन पॉलिसी 2020 के तहत किसी भी दुर्घटना पीड़ित की मदद करने पर 2000 से 5000 रूपए तक से आपको सम्मानित किया जाता है। साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। हेलमेट हमेशा पहन कर चलें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हेलमेट पहनने से आने वाली दुर्घटना को आप टाल सकते हैं। दुर्घटना में सिर ही सबसे अंग है, जिसका इलाज संभव नहीं है। इसलिए अपने सिर को बचाने के लिए जब भी गाड़ी को चलाने या गाड़ी में बैठने का मौका मिले हेलमेट का उपयोग में बहाना ना बनायें। बता दें कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा 2025 के तहत विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा प्रबंधक संजय बैठा व अन्य मौजूद थे।

भाजपा संविधान बदलने का प्रयास कर रही है: कांग्रेस

नवीन मेल संवाददाता डंडई। गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय डंडई में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान का आयोजन किया। गढ़वा जिला अध्यक्ष इंजीनियर ओबैदुल्लाह हक कि देख-रेख में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेन्द्र नाथ तिवारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष खुशींद आलम, जिला महासचिव ओम प्रकाश चौबे, अक्षय कुमार राम, प्रदेश प्रतिनिधि दशरथ चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष निजाम अंसारी, 20 सूत्री अध्यक्ष क्यामुदीन अंसारी सहित अन्य मौजूद थे। मौके पर जिला अध्यक्ष अब्दुल्लाह हक ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का अपमान जिस तरह सदन में केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है वह किसी हाल में क्षमा योग्य नहीं है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहब ने देश के आम लोगों के लिए जो किया

वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जो आम लोगों को शक्ति देता है, उसे केंद्र में भाजपा की सरकार बदलना चाहती है। केंद्र की भाजपा सरकार दलित विरोधी मानसिकता को अपनाते हुए संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है। हमें जैसे लोगों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। अभियान के पूर्व प्रखंड मुख्यालय डंडई स्थित मुख्य बाजार, लवाही मोड, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप होते हुए आंबेडकर चौक तक यात्रा निकाल कर कर अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके बाद आंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर कि स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। मौके पर नसीम अंसारी, सुशील कुमार, विनय भारती, विजय राम, सतीश पासवान, अखिलेश मेहता, कलाम अंसारी, विश्वनाथ यादव, अखर अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

भ्रष्टाचार मिटेगा और गरीबों को रहने के लिए छत मिलेगा: अनंत प्रताप

नवीन मेल संवाददाता समगा। प्रखंड क्षेत्र के सोनडीहा गांव के छपरा फील्ड मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ स्थानीय विधायक अनंत प्रताप देव, झामुमो केन्द्रीय समिति सदस्य ताहिर अंसारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस अवसर पर विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हारने वाले को जीतने के लिए तथा जीतने वाले को जीत बरकरार रखने के लिए खेलना चाहिए। वह साग कार्यक्रम को रद्द कर सबसे पहले सोनडीहा आने का काम किए। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक 10 साल तक विधायक रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक न एक दिन भ्रष्टाचार जरूर हटेगा। उन्होंने कहा कि इमानदारी से इस क्षेत्र में काम होगा। भ्रष्टाचार मिटेगा और गरीबों को रहने के लिए छत मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेवारी दी गई है उसे इमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। झामुमो केन्द्रीय



समिति सदस्य ताहिर अंसारी ने कहा कि गांव क्षेत्र में इस तरह का टूर्नामेंट का आयोजन होने से खिलाड़ियों में अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जो एक-एक वादा किए हैं उसे भी पूरा किया जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच पुनुर व कधवन क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। 12-12 ओवर का मैच खेला गया। कधवन क्रिकेट टीम ने पहले

बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट के नुकसान पर 78 रन बनाकर सिमट गयीं। जवाबी पारी खेलने उतरी पुनुर क्रिकेट टीम ने 4 विकेट नुकसान कर 79 रन बनाकर अगले चक्र में प्रवेश किया। मौके पर डॉ. हरिदास यादव, मोहम्मद गुलाम नबी, योगेंद्र यादव, बसंत यादव, यासीन अंसारी जोगेंद्र यादव अभिमन्यु यादव, सुभाष यादव रामाशंकर यादव, आशिक अंसारी,

कपिल देव पासवान, अमरनाथ पांडेय, विश्वनाथ पाल, शशि यादव, सोनु, मुन्ना पासवान, जीवराख यादव, मुरली पासवान, मनोज प्रजापति, मंगलेश यादव, चंद्रकांत यादव, उपाध्यक्ष राहुल कुमार, सचिव इरशाद अंसारी, तिलकधारी यादव, तिरंगा क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष जीवखारन यादव, सचिव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

न्यूज बॉक्स

असमय युवक की मौत से परिजनों में शोक रमना। गिद्धि निवासी योगेंद्र पांडेय उर्फ जुगु का 20 वर्षीय पुत्र सोनु पांडेय की मौत बुधवार को हो गयी। मृतक का रॉची से इलाज चल रहा था। सोनु कुछ दिनों से बीमार था। मृतक का शव घर पहुंचते ही परिजनों के चिकित्सक से पूरा माहौल गमगीन हो गया। उसका अंतिम संस्कार सुखड़ा नदी पर किया गया। इस दुःखद घड़ी में जिन अर्थशास्त्रियों, मुफ्तिया अजीत कुमार पांडेय, शंकर चंद्रवंशी मृतक के घर पहुंच कर शोकाकुल परिजनों को ढाँस बंधाया। धरती आबा जनजातीय अभियान 17 को मजिद आंव। प्रखंड कार्यालय सभागार में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से संबंधित तैयारी तेज कर दी गई है। यह कार्यक्रम 17 जनवरी सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रखंड स्तरीय योजनाओं का क्रियान्वयन, अनुश्रवण के लिए प्रखंड स्तरीय समिति के साथ बैठक की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी कनक ने प्रखंड के सभी कर्मियों को उपस्थिति ससमय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। समाज सेवी के पिता का निधन भवनाथपुर। अरसली उत्तरी पंचायत के मुखिया नुसरत जहां के ससुर सह समाज सेवी तासवीन अंसारी के पिता रोज मोहम्मद अंसारी 78 वर्ष की निधन मंगलवार की रात में गई। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही भाजपा नेता राजा सिंह, दिनेश सिंह, जेएमएम जिला उपाध्यक्ष लल्लू राम, प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव, अखर अंसारी, असमुद्दीन अंसारी, एलियास अंसारी, ऐनुल अंसारी ने मृतक के घर पहुंचकर शोक व्यक्त कर शोकाकुल परिजनों को ढाँस बंधाया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर पब्लिक एकेडमिक स्कूल का शुभारंभ

नवीन मेल संवाददाता भवनाथपुर। भवनाथपुर खरौंधी रोड अवस्थित स्व. गणेश साह के मकान में बुधवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर पब्लिक एकेडमिक स्कूल का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मनोज प्रसाद यादव व शैलेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जला कर तथा फीता काटकर किया। मौके पर मनोज प्रसाद यादव ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर पब्लिक एकेडमिक स्कूल भवनाथपुर के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई इतिहास रचेंगे। भवनाथपुर में ऐसे स्कूल की जरूरत थी। जहां से बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ें और जिले के साथ अपने अभिभावक व देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करने की शुभकामना दी। मौके पर स्कूल के हेडमास्टर राहुल सिंह, शिक्षिका खुशी चंदा, अनुराग रानी, झामुमो जिला उपाध्यक्ष लल्लू राम, असमुद्दीन अंसारी, विजय राउत, सलाहुद्दीन अंसारी, बृटा सिंह, इलियास अंसारी, प्रयाग राउत, राजकुमार राउत, गुलाब यादव आदि उपस्थित थे।

जांच खाद-बीज दुकानों का निरीक्षण, नियम उल्लंघन पर फटकार

दुकानदारों को नियमों का पालन करना अनिवार्य: उमेश कुमार

खाद-बीज के सही रख-रखाव के नियमों के बारे में पूछा, लेकिन दुकानदार कोई उत्तर नहीं दे पाया। इस पर पदाधिकारी ने सख्त नाराजगी जताई और कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानदारों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सभी दुकानदारों को निर्देश दिया कि खाद-बीज को निर्धारित दरों पर ही बेचें और सही तरीके से रखें। इस कार्रवाई का उद्देश्य किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

आपसी विवाद में पत्नी ने कीटनाशक खाया

नवीन मेल संवाददाता श्री बंशीधर नगर। थाना क्षेत्र के घघरी ग्राम में महिला ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुक्की में भर्ती कराया। वहां इलाज के बाद स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सक ने रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन महिला को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से भी बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कीटनाशक दवा खाने वाली महिला मनोज भुइयां की 22 वर्षीय पत्नी रेखा देवी है। परिजनों ने बताया कि सुबह आपस में पति पत्नी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद घर के सभी सदस्य काम पर निकल गए। रेखा ने घर में रखे कीटनाशक दवा खा

आपसी विवाद में पत्नी ने कीटनाशक खाया

नवीन मेल संवाददाता श्री बंशीधर नगर। थाना क्षेत्र के घघरी ग्राम में महिला ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुक्की में भर्ती कराया। वहां इलाज के बाद स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सक ने रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन महिला को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से भी बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कीटनाशक दवा खाने वाली महिला मनोज भुइयां की 22 वर्षीय पत्नी रेखा देवी है। परिजनों ने बताया कि सुबह आपस में पति पत्नी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद घर के सभी सदस्य काम पर निकल गए। रेखा ने घर में रखे कीटनाशक दवा खा

आपसी विवाद में पत्नी ने कीटनाशक खाया

नवीन मेल संवाददाता श्री बंशीधर नगर। थाना क्षेत्र के घघरी ग्राम में महिला ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुक्की में भर्ती कराया। वहां इलाज के बाद स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सक ने रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन महिला को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से भी बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कीटनाशक दवा खाने वाली महिला मनोज भुइयां की 22 वर्षीय पत्नी रेखा देवी है। परिजनों ने बताया कि सुबह आपस में पति पत्नी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद घर के सभी सदस्य काम पर निकल गए। रेखा ने घर में रखे कीटनाशक दवा खा

न्यूज बॉक्स

अमर शहीद पांडेय गणपत राय स्मारक समिति की बैठक हुई



भंडारा। अमर शहीद पांडेय गणपत राय के पैतृक गांव भौरो में स्मारक समिति की बैठक हुई। जिसमें आगामी 17 जनवरी को शहीद पांडेय गणपत राय की जयंती समारोह भव्यता के साथ मनाने पर चर्चा हुई। स्मारक समिति की अध्यक्ष डॉ. चंदना राय ने स्मारक समिति से जुड़े सदस्यों से कहा कि शहीद पांडेय गणपत राय की 215 वीं जयंती धूम-धाम से मनाई जाएगी। शहीद पांडेय गणपत राय की जयंती हर वर्ष धूमधाम से मनाया है, पर इस वर्ष यह लोगों के लिए वादावर रहेगा। चंदना राय ने कहा कि इसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए। सभी के सहयोग से ही जयंती समारोह को सफल बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 17 जनवरी को आयोजित जयंती समारोह में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिवारी, स्थानीय विधायक सह मंत्री चमरा लिंडा, सहित कई अन्य अतिथि कार्यक्रम में भाग लेकर शहीद को श्रद्धांजलि देंगे। बैठक में शामिल स्थानीय ग्रामीणों व शहीद स्मारक समिति के सदस्यों ने अपने-अपने बातों को रखा।

जस्तरतमंद लोगों के लिए दान ग्रहण हेतु वस्तु संग्रह का स्टॉल लगाया गया



लोहरदगा। वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड के लोहरदगा नगर समिति तथा नगर महिला समिति के द्वारा मकर संक्रांति पर हिंदू समाज के दान पुण्य करने का परंपरा को निर्वहन करते हुए वनवासी कल्याण केंद्र के प्रकल्प तथा जस्तरतमंद लोगों के लिए दान ग्रहण हेतु वस्तु संग्रह का स्टॉल लगाया गया। लोहरदगा नगर महिला समिति के उपाध्यक्ष रीता अग्रवाल जी का आवास के सम्मुख में लगाया गया है। नगर के दानदाताओं तथा वनवासी कल्याण केंद्र के शुभचिंतकों के द्वारा जस्तरतमंद लोगों के लिए दान नहीं दायित्व की भावना से वस्तु एकत्रित किए हैं जिसमें चावल, कंबल, स्वेटर, पानी के लिए फिल्टर, ग्लास, तथा अन्य आवश्यक सामग्री स्टॉल में एकत्रित किए हैं, स्टॉल का उद्घाटन करने में नगर समिति के अध्यक्ष अरुण राम, उपाध्यक्ष राजेश कुमार महतो, जिला समिति के सदस्य विनोद राय, वनवासी कल्याण केंद्र के सक्रिय शुभचिंतक नवल अग्रवाल, सक्रिय कार्यकर्ता तथा शुभचिंतक अनिल अग्रवाल, वनवासी कल्याण आश्रम के वरिष्ठ कार्यकर्ता कृपा प्रसाद सिंह सहित नगर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मकर संक्रांति पर सरस्वती विद्या मंदिर में समरसता खिचड़ी और पतंगबाजी का आयोजन



लोहरदगा। मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लोहरदगा में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर समरसता खिचड़ी और पतंगबाजी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पार्जन कर किया गया कार्यक्रम में मंच संचालन रश्मि साहू तथा अतिथि परिचय प्रीति कुमारी गुला ने किया। महाविद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार सिंह ने कहा, मकर संक्रांति का पर्व हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने और दूसरों को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। पतंग की तरह हमें ऊंचाइयों तक जाना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी की प्रगति में बाधा नहीं बनना है। इस अवसर पर विश्वासी कुजूर, भैया पीपूष और राधिका ने मकर संक्रांति से जुड़ी परंपराओं और महत्व पर प्रकाश डाला। भैया अभिजीत ने एकल गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में रंग बिरंग। पतंगबाजी प्रतियोगिता का आरंभ अतिथियों ने पतंग उड़ाकर किया प्रतियोगिता में कृप महता ने प्रथम, प्रियांशु कुमार ने द्वितीय, और आशुतोष कुमार साहू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

जिला परिषद की बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं के विकास की हुई समीक्षा जिले में जल-नल योजना में अनियमितता पर उठे सवाल

बीडीओ को जांच का निर्देश

नवीन मेल संवाददाता लोहरदगा। जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी की अध्यक्षता में बुधवार को जिला परिषद की बैठक जिला परिषद लोहरदगा के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सितंबर माह 2024 में हुई बैठक में विभिन्न विभागों को दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। इसमें 15वें वित्त आयोग से विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लाभुक समिति का चयन अंतर्गत सभी योजनाओं में लाभुक समिति को निर्गत कार्यदेश की जानकारी दी गई। जिला परिषद कार्यालय में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत पांच कर्मियों के मासिक मजदूरी दर में वृद्धि, जिला परिषद में दैनिक मजदूरी पर आंशिक रूप से कार्यरत चार कर्मियों के मजदूरी दर में वृद्धि करने की जानकारी दी गई। जिला में जल-नल योजना में अनियमितता के उपर माननीय सदस्यों द्वारा उठाये सवाल पर सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश उप विकास आयुक्त द्वारा दिये गये। किस्को स्थित प्रखण्ड स्तरीय पुस्तकालय को पुराने प्रखण्ड भवन में शिफ्ट करने के जिला परिषद सदस्य किस्को के प्रस्ताव पर उप विकास आयुक्त द्वारा प्रखण्ड विकास



डीआरडीए का जिला परिषद में विलय का प्रस्ताव

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापक 2078/ग्रामवि0 दिनांक के आलोक में केंद्र प्रायोजित डीआरडीए प्रशासन योजना के बंद होने तथा पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 77 के आलोक में राज्य सरकार के निर्णय की से जिला ग्रामीण विकास अधिकरण लोहरदगा को विघटित करने एवं जिला ग्रामीण विकास अधिकरण प्रशासन के सभी कर्मा अस्तित्वा एवं निधि जिला परिषद लोहरदगा में विलय/समाहित करने हेतु प्रस्तावित एजेंडा को पारित किया गया।

पदाधिकारी, लोहरदगा को आवश्यक निर्देश दिये गये। कैरो प्रखण्ड में बैंक ऑफ इंडिया शाखा में एटीएम मशीन और पासबुक फ्रिट करनेवाली मशीन लगाने का निर्देश अग्रणी बैंक प्रबंधक, लोहरदगा को दिया गया। डाकबंगला भण्डरा में सुखे पेड़ को दो दिनों में हटवाने का निर्देश अंचल अधिकारी को दिया गया। पाखर स्थित स्वास्थ्य उप केंद्र में पेयजल और पाखरगढ़ा में पेयजल की व्यवस्था के लिए सीएसआर मद

से हिंडालको इंडस्ट्रीज को कार्य कराने का प्रस्ताव का निदेश दिया गया। बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष विनोद उरांव, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखवात, अपर सहायता जितेंद्र मुंडा, विधायक प्रतिनिधि निशीथ जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि मो० अजहर, कैरो के जिला परिषद सदस्य सुखदेव उरांव, जिला परिषद सदस्य किस्को के संचालक, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी गण व अन्य उपस्थित थे।

ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रारम्भ

सेन्हा-लोहरदगा। प्रखंड मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी सभागार में बुधवार से प्रखंड क्षेत्र के अरु,उगरा,अलौदी और संरेहातु तोड़ार पंचायत के ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का द्वितीय चरण का तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ। वही प्रशिक्षण के क्रम में प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर चंदना कच्छप प्रखंड समन्वयक नवलीन कौर,प्रदान संस्था के रामस्वराथ महतो द्वारा ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल को ग्राम विकास योजना निर्माण प्रक्रिया,सहजकर्ता दल के सदस्यों का कार्य,तीन दिन का ग्राम सभा और विशेष ग्राम सभा आयोजन करने के संबंध में पीपीटी एवं वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी दिया गया। साथ ही गांव के विकास के लिये सरकार द्वारा संचालित संबंधित विकास योजनाओं का चयन प्रक्रिया के बारे में भी मुख्य रूप से बताया गया। तथा सामाजिक मानचित्र,संसाधन,ग्राम विकास मानचित्र की प्लानिंग प्रक्रिया की जानकारी दि गई।



घाघ मेला में सूर्य उत्तरायण महायज्ञ का हुआ आयोजन



नवीन मेल संवाददाता लोहरदगा। सेन्हा प्रखंड के अंतर्गत चित्तरी घाघ मेला में बुधवार को वैदिक विश्व मंगल न्यास एवं आर्य समाज लोहरदगा के संयुक्त तत्वाधान में सूर्य उत्तरायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ के ब्रह्मा - युवा विद्वान डॉ अशोक आचार्य के द्वारा मंत्र पाठ कर मकर संक्रांति से संबंधित वेद के मंत्रों के द्वारा

यजमान- उदय सिंह शाह धर्मपंजी, दीपक कर्मकार, शीतल कर्मकार से आहुति दिलवाई। मेला में आए बहुत से भक्तों ने आहुति प्रदान कर मेला क्षेत्र एवं पूरे प्रदेश में सुख शांति के लिए प्रार्थना किये। आचार्य अशोक ने मकर संक्रांति के वैज्ञानिक महत्व को वेद के माध्यम से बताएँ की किस तरह सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और इस दिन यज्ञ का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी आहुति प्रदान किया जाता है वह सभी वायुमंडल में फैल जाते हैं। जिससे प्रकृति का संरक्षण होता है एवं पर्यावरण की शुद्धि होती है। यज्ञ के द्वारा हानिकारक विषाणु नष्ट हो जाते हैं। अलौकिक शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। वर्षों की कमी दूर होती है। यज्ञ करने वाले व्यक्ति की सार्वभौमिक उन्नति होती है। संक्रांति के बाद सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं।

बेस्ट प्लेयर का खिताब अशिमत, मनीष, बिहारी व सिंधु को मिला सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग चला रहा अभियान

नवीन मेल संवाददाता लोहरदगा। एक ओर जहाँ पूरे देश में करीब 178000 लोगों की दर्दनाक मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो रही है। जिसमें 18 से 35 वर्ष उम्र के 65% लोग हैं जो बहुत पीड़ा जनक है। वहीं लोहरदगा जिले में भी आए दिन सड़क दुर्घटना से लोगों की जान माल की क्षति हो रही है तथा कई परिवार उजड़ भी जा रहे हैं। इसके लिए स्वयं को भी जगना पड़ेगा। ड्रूक एंड ड्राइव,हेलमेट- सीट बेल्ट पहनने, छात्रों को तुरंत अस्पताल पहुंचकर नैक नागरिक का परिचय देने, ओवर स्पिडिंग, ट्रिपल राइड, रफ ड्राइविंग,नाबालिक चालक, एंजुलेस दमकल वाहन को साइड देने, सदैव बाईं ओर चलने,वाहन चलाते समय मोबाइल से परहेज करने,इंडिकेटर का उपयोग करने आदि रोड सेफ्टी रूल्स को आमजनों व विशेष कर युवाओं के बीच लाने हेतु राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा



समिति द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा विद्यार्थियों से प्रभात रैली, नुक्कड़ नाटक,पंपलेट वितरण आदि कई कार्यक्रम चल रहे हैं। जिसमें लोहरदगा के साथ रांची के भी टीमों ने हिस्सा लिया। जिसमें इटकी, तमाड, चानहो, नदिया हॉस्टल, कैरो, उमरी, कुजरा, बाघा, टाकू, बिराजपुर, चटकपुर, लोहरदगा, बंदुवा, रोनिया आदि के टीमों ने अपना खेल का प्रदर्शन किया। जिसमें आदि रोड सेफ्टी रूल्स को आमजनों व विशेष कर युवाओं के बीच लाने हेतु राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा

दो मध्यस्थों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया विशेष प्रमाण पत्र

नवीन मेल संवाददाता लोहरदगा। जिले के दो मध्यस्थ हेमंत कुमार सिन्हा और मो नसीम अंसारी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता को लेकर विशेष प्रमाण पत्र दिया गया है। वहीं बुधवार को दोनों मध्यस्थ को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सह अध्यक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति जस्टिस बीआर गवाई द्वारा हस्ताक्षरित विशेष प्रमाण पत्र को पीडीजे सह अध्यक्ष डालसा, लोहरदगा राजकमल मिश्रा के हाथों प्रदान किया गया। यह प्रमाण

पत्र दोनों मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता को लेकर विशेष कार्य करने हेतु प्रदान गया है। वर्तमान में हेमंत कुमार सिन्हा अधिवक्ता सह वरिष्ठ मध्यस्थ के रूप में व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा में कार्यरत हैं। वहीं नसीम अंसारी पूर्व में मध्यस्थ थे, किन्तु वर्तमान में एलएडीसी चीफ के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं पीडीजे सह डालसा अध्यक्ष ने मध्यस्थ सह अधिवक्ता हेमंत कुमार सिन्हा और एलएडीसी चीफ नसीम अंसारी को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, डालटनगंज

शुद्धि पत्र
इस कार्यालय द्वारा निर्गत निविदा आमंत्रण सूचना, जिसका पी0आर0 नं0- PR 341708 (Building)24-25*D है को क्रमांक 2 से 5 में अंकित कार्य को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है, शेष यथावत रहेगा।
कार्यपालक अभियंता,
PR 344307 Building(24-25)#D भवन प्रमण्डल,डालटनगंज

कार्यालय- जिला उद्यान पदाधिकारी, लातेहार

आवश्यक सूचना
PR No. 343674 Agriculture (24-25)D दिनांक 09.01.2025 के आलोक में "प्रमोशन ऑफ अरबन फार्मिंग" के तहत अति अल्पकालिन निविदा संबंधी तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड का निश्पादन हेतु दिनांक 16.01.2025 को 11:00 बजे अपराह्न में जिला उद्यान पदाधिकारी, लातेहार की अध्यक्षता में किया जाना था जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड का निश्पादन दिनांक 18.01.2025 को अपराह्न 11:30 बजे निविदा खोला जाएगा।
जिला उद्यान पदाधिकारी,
PR 344318 (Agriculture)24-25*D लातेहार

अज्ञात ट्रक की चोपट में आने से दो युवक हुए घायल

सेन्हा-लोहरदगा। सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहरदगा गुमला मुख्य पथ पर गौसिया मस्जिद समीप स्थित होटल के पास अज्ञात ट्रक की चोपट में आने से बूटी ग्राम निवासी सुशील उरांव और अनिल उरांव दोनों युवक घायल हो गये। घायल युवकों को सेन्हा थाना पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से 108 एंबुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लोहरदगा पहुंचाया गया। वही ट्रक की चोपट में आने से अनिल उरांव को हल्की चोटें लगी है जबकी सुशील उरांव को का स्थिति गंभीर था। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि खाली बॉक्ससाइट ट्रक और मोटरसाइकिल संख्या जे एच 08ई 6857 में सवार सुशील उरांव एच अनिल उरांव एक ही दिशा से लोहरदगा की ओर से कंडरा के तरफ जा रहे थे। तभी मोटर साइकिल सवार युवकों ने ट्रक के पीछे धक्का मार दिया। धक्का मारने पर बाइक चालक युवक रास्ता में गिर कर अचेत हो गया।

रुद्र महायज्ञ आयोजन को लेकर बैठक हुई कैरो/लोहरदगा। प्रखंड के उतका गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में बुधवार को रुद्र महायज्ञ आयोजन को लेकर शरत कुमार विद्यार्थी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में रुद्र महायज्ञ का आयोजन भव्य रूप से करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर शिव मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी की गई। मंदिर के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ महायज्ञ की आयोजन होगी।

कार्यालय:- जिला उद्यान पदाधिकारी, लातेहार।
आवश्यक सूचना
PR No. 343678 Agriculture (24-25)D दिनांक 09.01.2025 के आलोक में LEAF COLOR CHART के तहत अति अल्पकालिन निविदा संबंधी तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड का निश्पादन हेतु दिनांक 16.01.2025 को 11:00 बजे अपराह्न में अनुमंडल कृषि कार्यालय, लातेहार की अध्यक्षता में किया जाना था जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड का निश्पादन दिनांक 18.01.2025 को अपराह्न 11:30 बजे निविदा खोला जाएगा।
जिला उद्यान पदाधिकारी,
PR 344317 Agriculture(24-25)D लातेहार।

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पलामू
(सर्वसाधारण के लिए सूचना)
सतबरवा थाना काण्ड सं०-92/2023, दिनांक-01.09.2023, धारा-147/148/149/307/353 भा0दोवि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 के प्रा0अभि0 1. लवलेश गंडू उर्फ लवलेश जी, पिता प्रधान गंडू, पता थाना बालूमाथ 2. पम्प लोहरा उर्फ सूर्यदेव लोहरा पिता गर्जु लोहरा सा0 लुंडी कोने एवं 3. शिव सिंह उर्फ शिव जी पे0 सुखलाल सिंह सा0 गोदना तीनों थाना लातेहार के संबंध में सूचना/जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सूचित करें अथवा निम्नांकित फोन नम्बर पर संपर्क कर इसकी सूचना दें।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर:- 9431706239
थाना प्रभारी, सतबरवा मेदिनीनगर:- 6207146741
पुलिस अधीक्षक,
पलामू
PR 344276 Police(24-25)D

कार्यालय नगर पंचायत, लातेहार।
अतिअल्पकालिन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं० 16/2024-25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत लातेहार में कार्यालय उपयोग को ध्यान में रखते हुए UPS का क्य नगर पंचायत लातेहार द्वारा की जानी है। विवरण निम्नवत है:-

S.L. NO	DESCRIPTION	Quantity	Tender Fees	Earnest Money	Rate with all Taxes
01	UPS 5 KVA Online UPS Inverter with Isolation Transformer, Capacity - 5KVA, DC Volt Rating - 192 Volt, Out Put - 220v	01	1000.00		
02	UPS 5 KVA Online UPS Inverter with Isolation Transformer, Capacity - 5KVA, DC Volt Rating - 180Volt, Out Put - 220v	01	1000.00	15000.00	

उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्म / आपूर्तिकर्ता से दिनांक 27.01.2025 के अपराह्न 2.30 बजे तक पूर्ण विवरणी एवं सभी कर सहित अपना कोटेशन नगर पंचायत लातेहार के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। कोटेशनदाता से प्राप्त कोटेशन को उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। कोटेशनदाता को आपूर्ति की जाने वाली संयंत्रों का Presentation निविदा समिति के समक्ष दिनांक 27.01.2025 को अपराह्न 3.30 बजे देना अनिवार्य होगा, आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता अच्छी होने के उपरान्त ही संयंत्रों की आपूर्ति ली जायेगी। कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ अद्यतन आयकर एकनॉलेजमेन्ट, पैन कार्ड एवं GST प्रमाण पत्र 3B Return एवं प्रतिशित प्रतिशदान का निबंधन प्रमाण पत्र, आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों का रंगीन कैंटॉलिंग /फोटोग्राफ देना अनिवार्य होगा। कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का बैंक चेक / बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत लातेहार के नाम से देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही विपत्र के मुगतान के समय मुगतान की जाने वाली राशि से नियुगानुसार अन्य कर (Tax) की कटौती की जायेगी। कोटेशनदाता से दर प्राप्त होने के उपरान्त न्युनतम दरदाता की स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्यदेश निर्गत की जायेगी। कार्यदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति करना आवश्यक होगा। इस संबंध में विशेष जानकारी कार्यालय के कार्य दिवस में राज कुमार वर्मा, नगर प्रबंधक, नगर पंचायत लातेहार से प्राप्त की जा सकती है।
प्रशासक,
नगर पंचायत, लातेहार।
PR 344264 Urban Development(24-25)D

कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम।
शापाक दिनांक

अतिअल्पकालीन ई0-कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या UDHD/MMC/27/2024-25

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत निगम द्वारा संचालित जलापूर्ति योजनाओं (WTP) और चापाकल से संबंधित कार्य कराने के लिए सामग्री क्रय की आवश्यकता है। इच्छुक सामग्री निर्माण कम्पनी या निर्माण कम्पनी द्वारा अधिकृत एजेंसी को ई0-कोटेशन के माध्यम से दिनांक 24.01.2025 को 1.00 बजे अपराह्न तक निश्चित सामग्रियों की दर जमा करना होगा। ई0-कोटेशन के साथ निविदा आमंत्रण शुल्क मो० 5,000/- रू० एवं सुरक्षित जमा राशि मो० 60,000/- रू० ऑन-लाईन करना अनिवार्य होगा। निविदा शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी। निविदा कोटेशन दिनांक 25.01.2025 को 2:00 बजे अपराह्न नगर निगम कार्यालय में निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी। कोटेशन समर्पित करने वाले कोटेशनदाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। जलापूर्ति योजनाओं (WTP) और चापाकल से संबंधित सामग्री क्रय किये जाने से संबंधित सामग्रियों की विस्तृत विवरणी निम्नवत है :-

MATERIALS REQUIRED FORWTP

S.L.	Items Name	Specification	Quantity
1	Allum		1 ton
2	Bleaching (Aditya Birla)		1 ton
3	Lime (Hydrated Lime)		1 ton
4	Galansuta	8, 10, 12 & 16mm, 20 mm	1 no. each
5	Grease (Castrol/Servo/ABC)		1 kg
6	Coupling Tyre	15, 16 & 17 no.	1 no. each
7	Nut & bolt, WASHER	Different Sizes	1 no. each/ 1 kg
8	Tyre coupling Set	15,16 & 17 No	1 no.
9	Rubber (for Gasket)		1 kg
10	Copper Lug	All Size	1 no. each
11	Alluminium Lug	All Size	1 no. each
12	Relay (L&T/Havels)	250 amp.	1 no.
13	Contactar (L&T/Havels)		1 no.
14	3 core copper and aluminum wire	50 mm	1 m
15	Copper and aluminum wire	16 mm	1m
16	Transformer oil		1 lit.
17	Slice Valve	4", 8"	1 no
18	Check valve	4", 8"	1 no

MATERIALS REQUIRED FOR HAND PUMP

S.L.	Items Name	Specification	Quantity
1	Handle (Bharat/India Mark II)		1 no.
2	Head (Bharat/India Mark II)		1 no.
3	Body (Bharat/ India Mark II)		1 no.
4	Chain		1 no.
5	Axle (heavy)		1 no.
6	Bearing		1 no.
7	Connecting Rod (4 suta)	10" Length	1 no.
8	G.I PIPE (TATA /JINDAL/SUPREME)	10" Length, 32 mm dia.	1 no.
9	Cylinder (Gun metal)	2.5"	1 no.
10	Black Tape	1" & 2"	1 no.
11	1/2" plug - PVC		1 no.
12	M-sed	90 g each box	1 pack (6 Box)
13	Rod Coupling		1 no.
14	Pipe Coupling (TATA)	1.25" (32 mm)	1 no.
15	Front cover (Bharat/ India Mark II)		1 no.
16	Check Valve with Washer		1 no.
17	Cylinder Ring (lather)		1 no.
18	Hand pump washer (Burhani)		1 no.

NOTE :- Only E-Tender will be accepted. Further details can be seen on website <http://jarkhandtenders.gov.in> & Notice Board office of the Medininagar Municipal Corporation.
80/-
नगर आयुक्त -सह प्रशासक
मेदिनीनगर नगर निगम
PR 344272 District(24-25)D

जारी के डाइंटोली स्थित राजकीय नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से कराई गई सफाई

नवीन मेल संवाददाता
चैनपुर। चैनपुर अनुमंडल के अंतर्गत जारी प्रखंड स्थित राजकीय नवसृजित प्राथमिक विद्यालय डाइंटोली में हाल ही में एक विवादास्पद घटना घटी है, जिसमें प्रधानाध्यापिका ने बच्चों से सफाई कार्य कराने का निर्णय लिया। विद्यालय परिसर में बच्चों से झाड़ू लगाने, गोबर से लिपाई और पुताई कराने का मामला सामने आया है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, खासकर जब कुछ बच्चे बिना किसी शिक्षिका के पठन-पाठन करते देखे गए। स्थानीय निवासियों का मानना है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत बच्चों को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि उन्हें सफाई कार्यों में लगाया जाना चाहिए। समुदाय के लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की है कि वे गतिविधियां न केवल बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर सकती हैं, बल्कि उनके मानसिक पर भी शारीरिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। यह घटना शिक्षा व्यवस्था की दिशा



स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल

गुमला में मत्स्य पालन पर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन



गुमला। जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा नगर भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मत्स्य कृषकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उनके सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में टोस कदम उठाना था। कार्यशाला का उद्घाटन उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने किया। उन्होंने मत्स्य पालन को स्वरोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन बताते हुए इसे आत्मनिर्भरता का मार्ग बताया। जिला मत्स्य पदाधिकारी कुसुम लता ने बताया कि गुमला जिले के 6800 मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है। साथ ही, आधुनिक तकनीकों जैसे बायोफ्लोक टैंक, ग्रा आउट तालाब और आरएएस तकनीक से जलक्षेत्रों में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में नवाचार के तहत धनसिंह, मसरिया और अपरशंख जलाशयों में 68 केज अधिष्ठापित कर विस्थापित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मसरिया जलाशय में के सहयोग से महाडींगा बीज का संयोजन भी किया गया है। इसके अलावा, जिले में तीन लघु फिश फीड मिलों की स्थापना की गई है, जिससे अब बाहर से चारा मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी, और मत्स्य कृषकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। कार्यशाला में उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो, उप मत्स्य निदेशक अमरेंद्र कुमार, जिला सहायकारिता पदाधिकारी माधुरी बेक, अन्य अधिकारी और जिले के प्रमुख मत्स्य कृषक शामिल हुए।

सेमला टोंगरी में भालू के हमले से 45 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल

गुमला। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के कटिंग पंचायत अंतर्गत सेमला बरटोली के सेमला टोंगरी टोली में मंगलवार दोपहर 2 बजे भालू के हमले में 45 वर्षीय महिला रंजीता बेक गंभीर रूप से घायल हो गई। वह जलावन लकड़ी लाने जंगल गई थीं, जब अचानक दो भालुओं ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके कान, हाथ, नाक, आंख, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने उन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार, सुधार नहीं होने पर उन्हें रिस्म रॉची रेफर किया जा सकता है। परिजनों ने बताया कि रंजीता बेक अक्सर जलावन के लिए लकड़ी चुनने सेमला टोंगरी जाती थीं। आज भी वह अकेले गई थीं, जब अचानक दो भालुओं ने उन पर हमला कर दिया। उनकी चोख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंचे, जिससे भालू वहां से भाग गए। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे जंगल में अकेले न जाएं और सतर्क रहें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।



कुदरा मोड़ पर स्थित उमंग गेस्ट हाऊस का एक वर्ष पूरे होने पर मनाया गया वार्षिकोत्सव

सिसई (गुमला)। सिसई मेन रोड कुदरा मोड़ स्थित उमंग गेस्ट हाऊस का 15 जनवरी को एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद उत्तरी विजयालक्ष्मी कुमारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुईं। उन्होंने वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि सिसई जैसी छोटी जगहों पर इस तरह का गेस्ट हाऊस खुलना बहुत ही सराहनीय कदम है। यहां आने वाले वैश्वे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, जो किसी कार्य के लिए यहां आते हैं, और उनका काम समय पर नहीं हो पाता है, और ठहरने के लिए गुमला या रांची जाना पड़ता है। या वैश्वे लोग जो किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दस पंद्रह दिनों के आते हैं उनको ठहरने का कोई सुविधा न मिल पाने के कारण गुमला रांची से आना जाना पड़ता है। उन सभी के लिए एवं सेलानियों के लिए अति उत्तम व्यवस्था है। इस तरह के गेस्ट हाऊस सिसई में पहली बार खुला है, इसके खुलने से सिसई वासी बहुत ही उत्साहित हैं।

गुमला में मारवाड़ी युवा मंच का रक्तदान शिविर संपन्न

गुमला। मारवाड़ी युवा मंच गुमला और मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के संयुक्त तत्वाधान में 16 जनवरी 2025 को गुमला ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर समाजसेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य जिला परिषद उत्तरी विजयालक्ष्मी कुमारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुईं। उन्होंने वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि सिसई जैसी छोटी जगहों पर इस तरह का गेस्ट हाऊस खुलना बहुत ही सराहनीय कदम है। यहां आने वाले वैश्वे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, जो किसी कार्य के लिए यहां आते हैं, और उनका काम समय पर नहीं हो पाता है, और ठहरने के लिए गुमला या रांची जाना पड़ता है। या वैश्वे लोग जो किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दस पंद्रह दिनों के आते हैं उनको ठहरने का कोई सुविधा न मिल पाने के कारण गुमला रांची से आना जाना पड़ता है। उन सभी के लिए एवं सेलानियों के लिए अति उत्तम व्यवस्था है। इस तरह के गेस्ट हाऊस सिसई में पहली बार खुला है, इसके खुलने से सिसई वासी बहुत ही उत्साहित हैं।

अवैध खनन पर जिला प्रशासन का शिकंजा

भरनो में खनन पट्टों और क्रशर प्लांट का औचक निरीक्षण

नवीन मेल संवाददाता
गुमला। अवैध खनन पर रोक लगाने और इसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त के निर्देश पर बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) ने भरनो प्रखंड के करौंदा जोर मौजा में स्थित खनन पट्टा क्षेत्रों और क्रशर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खनन पट्टाधारियों द्वारा नियमों के अनुपालन, खनन गतिविधियों की वैधता, और पर्यावरणीय प्रावधानों का गहन मूल्यांकन किया गया। दस्तावेजों की जांच के साथ ही मौके पर किसी भी अनियमितता पर विशेष ध्यान दिया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन में लिफत किसी भी व्यक्ति या संस्था को बखशा नहीं जाएगा। निरीक्षण अभियान जारी है, और अनियमितताओं की पुष्टि होने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध खनन की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि एक



स्वच्छ और कानूनसम्मत वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। निरीक्षण अभियान में अंचल अधिकारी भरनो, जिला खनन पदाधिकारी गुमला, और अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।

झारखंड नवनिर्माण दल की कैडर कन्वेंशन की तैयारी तेज

नवीन मेल संवाददाता
गुमला। झारखंड नवनिर्माण दल द्वारा 31 जनवरी 2025 को रांची में आयोजित होने वाली झारखंड स्तरीय कैडर कन्वेंशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडलवार जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गुमला अनुमंडल क्षेत्र में पुष्या उरांव, शिवप्रसाद साहू, रामयार तुरी, धर्मपाल उरांव और शिवप्रसाद नायक को जिम्मेदारी दी गई है। बसिया अनुमंडल के लिए आदित्य सिंह, शंकर उरांव, मनी उरांव, बालेश्वर उरांव और सुष्मा मिश्र को दायित्व सौंपा गया है। वहीं, चैनपुर क्षेत्र की तैयारी का नेतृत्व प्रकाश उरांव, भूपण सिंह, राजकुमार राय, फिलमोन कुजुर और नीलिमा सारस करेगी। इस कन्वेंशन में राज्य में सदस्यता अभियान तेज करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन संगठित करने, पार्टी का विस्तार और मजबूती सुनिश्चित करने, जनसम्मत्याओं पर जन एकता बनाने और आंदोलनात्मक रणनीति तैयार करने जैसे मुद्दों पर बड़े निर्णय लिए जाएंगे।

भरनो के शिक्षक अशोक गुप्ता को सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई

गुमला। भरनो प्रखंड के डूडीया गांव स्थित राजकीय उत्कर्मित उच्च विद्यालय डूडीया में कार्यरत पारा शिक्षक अशोक गुप्ता के सेवानिवृत्ति पर विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूली बच्चों द्वारा स्वगत गीत से हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुधेश्वर उरांव ने अशोक गुप्ता के समर्पण और ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कमी विद्यालय में हमेशा खलेगी। अशोक गुप्ता ने 2003 से 2014 तक निष्ठा पूर्वक सेवा दी, जिसे याद रखा जाएगा।

नीति आयोग के संयुक्त निदेशक की अगुवाई में शैक्षणिक पायलट अध्ययन



आकृति कुमार, विधि यादव, और अभिषेक आनंद शामिल थे। **शैक्षणिक योजनाओं की समीक्षा** जिला समारोहालय में परियोजना निदेशक, आईटीडीए के नेतृत्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक ने जिले की शैक्षणिक उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी की। **विद्यालयों का निरीक्षण** टीम ने घाघरा और सिसई प्रखंड के विभिन्न स्कूलों का दौरा किया। जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों के साथ संवाद करते हुए टीम ने शैक्षणिक सुविधाओं, पुस्तकालय, लैब, खेल सुविधाओं, और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन

नवीन मेल संवाददाता
गुमला। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, रांची के तत्वाधान में 15 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुमला में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना और उन्हें सफल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करना था। शिविर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के रंजीत कुमार सोनकर ने वीडियो की वितरित जानकारी दी और स्वरोजगार स्थापित करने की प्रक्रिया पर प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया।



जाली निर्माण इकाई, गुमला के उद्यमी सौरभ अग्रवाल ने अपने अनुभव साझा कर युवाओं को प्रेरित किया। शिविर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के रंजीत कुमार सोनकर ने वीडियो की वितरित जानकारी दी और स्वरोजगार स्थापित करने की प्रक्रिया पर प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया।

अबुआ आवास व प्रधानमंत्री आवास को जल्द पूर्ण करे लाभुक : मुखिया योगेंद्र भगत

घाघरा। घाघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत भवन में सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता घाघरा पंचायत के मुखिया योगेंद्र भगत ने की जिसमें घाघरा पंचायत के सभी वार्ड सदस्य पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक आंगनवाड़ी सेविका उपस्थित रहे जिसमें ग्राम सभा में आए विभिन्न वार्ड के ग्रामीणों ने 2025 - 26 के लिए सबकी योजना सबका विकास के तहत विकास कार्य के लिए रोड नाली एवं आवास के लिए प्लान तैयार किया गया। जिससे आने वाले समय में ग्रामीणों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। वहीं घाघरा पंचायत के मुखिया योगेंद्र भगत ने कहा जो भी लाभुक पहले से आवास लेकर अपनी आवाज को पूर्ण नहीं की है।



प्रपत्र VI के समाहरणालय पलामू विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी (शाखा मेदिनीनगर, पलामू) या उपायुक्त, पलामू समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना
अधिनियम सं० 30/2013 की धारा 11(i) के अधीन
पत्रांक - 14 वि०भू०अ०, मेदिनीनगर दिनांक - 11.01.2025

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता पलामू को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कोल्हुआ, थाना-पाँकी, थाना नं०-461, अंचल-पाँकी, जिला-पलामू में भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अमानत बराज निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(i)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं।

अतएव सूचित किया जाता है कि ग्राम-कोल्हुआ, थाना-पाँकी, थाना नं०-461, अंचल-पाँकी, जिला-पलामू में उपर्युक्त परियोजना के कर्मोंवर 9.935 एकड़ मानक माप का भूमि जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है अर्जनाधीन है -

क्रमांक	खाला सं०	खेसरा सं०	स्वाभिलिखित का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	उ०	द०	प०	सोमा रेखा संख्या	
01	57	377	रैयती	कृषि	0.13	कुदूस मिया वगैरह, पिता-रचो नाजीर मिया वगैरह इमान मिया वगैरह	सुरमली मिया सुरमली मिया	सविन महतो लोभर मिया	लोभर मिया बनी सिंह	लोभर मिया नीज	
		423	रैयती	कृषि	0.04						
02	59	440	रैयती	कृषि	0.15	महमूद मिया वै०, मकसूद मिया वै०, अजीन मिया वै०	सविन महतो	मीखारी महतो	प्रतो कदमि	बीजेसर सिंह	
03	22	395	रैयती	कृषि	0.05		लोभर मिया	नीज	सोबन महतो	नन्दूक मिया	
		437	रैयती	कृषि	0.03		तपसी बढही	सोबन महतो	श्री सिंह	सोबन महतो	
		472	रैयती	कृषि	0.05		सुरमली मियां नीज	प्रती कदमि	नीज	नीज	
		640	रैयती	कृषि	0.18		वीरान महतो	लोभर मियां देवा सिंह	नीज	सोबन महतो	
		478	रैयती	कृषि	0.03		कृषि	देवा सिंह	नीज	नीज	
		404	रैयती	कृषि	0.05		सुरमली मियां	सोबन महतो	नीज	नीज	
		475	रैयती	कृषि	0.06		सीरी सिंह	लोभर मियां	सुरमली मियां	देवा सिंह	सोबन महतो
		434	रैयती	कृषि	0.04		हरदही मियां	सोबन महतो	नीज	नीज	
		473	रैयती	कृषि	0.05		सोबलोन सिंह	एकवरण सिंह	सोबन महतो	नीज	एकवरण सिंह
		456	रैयती	कृषि	0.04		प्रयाग बढही	नीज	प्रती कदमि	नीज	सोबन महतो
		495	रैयती	कृषि	0.09		वीन सिंह	नीज	प्रती कदमि	नीज	नीज
		496	रैयती	कृषि	0.10		बनी सिंह	नीज	प्रती कदमि	नीज	नीज

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं० 30/2013) की धारा 11(i) के उपबंधों के अधीन सभी कोल्हुआ व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। भूमि की योजना का निरिक्षण विशेष भू-अर्जन कार्यालय, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यालय में किया जा सकता है।

आरखण्ड सरकार/समाहर्ता सह समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का संवैधानिक एवं उचित प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी रत्न को सामने के लिए भूमि खोजने या भू-वैधन छिद्र करने सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर और संबंधित कर्मचारी पलामू तथा अधियायी पदाधिकारी को प्राधिकृत करती है। अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति समाहर्ता के पूर्वीक अनुमोदित के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अन्वयन नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत प्रसार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू के सम्म दार्ज की जा सकती हैं।

संपादकीय

फिर से पाक बनता बांग्लादेश

जिस पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने जुलूमों सितम से मुक्ति दिलाकर बांग्लादेश बनवाया और पाकिस्तान से वैर बढ़ाया वही न सिर्फ भारत के प्रति घृणा फैला रहा है बल्कि पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 1971 में जिस पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान से भारत ने मार भगाया था। 53 साल बाद फिर से पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में लौटने लगी है। इसका मुख्य कारण है काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान की आईएसआई अमेरिका की मदद से बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा वहां के युवाओं को शोध हसीना के विरुद्ध भड़का रही थी, खुफिया शोध हसीना भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखती थीं। इस कारण भारत की बांग्लादेश से लगती सीमाएं सुरक्षित थीं। लेकिन पाकिस्तानी आईएसआई ने परोक्ष युद्ध के द्वारा भारत के लिए एक नया मोर्चा खोलकर उसकी सेना को बांग्लादेश की राह पर है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसके मुताबिक जनरल शमशाद मिर्जा खुद बांग्लादेश की सेना के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर और डीफेंस स्कूल, डिफेंस सर्विसेज कमांड स्कूल इत्यादि का दौरा करेंगे तथा वहां के स्टाफ कॉलेज में युवा अफसरों को संबोधित करेंगे। बांग्लादेश ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। पाकिस्तान के तत्कालीन शासक पूर्वी पाकिस्तान को एक गुलाम देश की तरह रखते थे, जिससे शोध मुजीब उर रहमान ने भारत की मदद से आजादी दिलवाई थी। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दोबारा अपने चंगुल में लेने के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों का सहारा लिया। इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने जमाते इस्लामी की इकाई इस्लामी छात्र को भड़काकर उग्र प्रदर्शन करवाए और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शोध हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान की इस हरकत में चीन ने उसे आर्थिक सहायता पहुंचाई, जिसके द्वारा जमाते इस्लामी अपना यह उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश में चला रही थी। इस संघटन का उद्देश्य बांग्लादेश में भी अस्थायित्वान्तरण सरकार का तरह ही उग्रवादी सरकार स्थापित करना है। अब वह दिन दूर नहीं, जब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी मुस्लिम कट्टरपंथियों और उग्रवादियों के द्वारा चारों तरफ हिंसा का माहौल होगा और वह भी आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान की श्रेणी में पहुंच चुका होगा। पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच में संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया चल रही है। परंतु भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन का धोखा देने का पुराना इतिहास रहा है। अभी पिछले काफ़ी समय से चीन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनी गतिविधि बढ़ाने के लिए भारत के सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करना चाहता है और अपने इस मकसद को वह बांग्लादेश द्वारा पूरा करना चाहता है। इसलिए भारत को अब अपनी पूर्वी सीमाओं पर और भी ज्यादा चौकसी बरतने की जरूरत होगी। अब भारत को बांग्लादेश से इस प्रकार निपटना चाहिए, जिस प्रकार वह पाकिस्तान से निपट रहा है।

सहकारिता : एक सतत और समावेशी वैश्विक भविष्य की कुंजी

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) का वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024, सो से अधिक देशों से आए वैश्विक नेताओं की एक सभा मात्र न होकर कहीं अधिक मायने रखता है; यह एक सतत एवं न्यायसंगत भविष्य को आकार देने में सहकारी समितियों के बढ़ते महत्व का प्रमाण है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 (आईवाईसी 2025) का शुभारंभ किया, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है जिसका मूल उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को आगे बढ़ाने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यानकेंद्रित करना है। यह वर्ष वैश्विक, आर्थिक और सामाजिक विमर्श का वह महत्वपूर्ण अध्याय बन रहा है, जहाँ सहकारी समितियों को न केवल स्थानीय विकास के साधन बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भी पहचान दी जा रही है।

सहकारी मॉडल : आर्थिक एवं समाजिक पर वैश्विक बदलाव के लिए तैयार

सहकारी मॉडल के मूल में एक सरल लेकिन शक्तिशाली अवधारणा निहित है - परस्पर लाभ के लिए एक साथ काम करते लोग। सहकारिता सामूहिक स्वामित्व, साझा जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक निर्णय लेने पर जोर देती है। इन सिद्धांतों ने दुनिया भर में कृषि, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं से लेकर ऊर्जा उत्पादन तक उल्लेखनीय सफलताएं दिखाई हैं। भारत में, सहकारी समितियाँ ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। उदाहरण के लिए, अमूल ने न केवल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है, बल्कि सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता और समृद्धि का प्रतीक भी बन गया है। अमूल जैसी उद्यमियाँ उन सभी महिलाओं को सशक्त बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला नेतृत्व वाले विकास का समर्थन करती हैं, जो महिलाएं व्यावसायिक दूध उत्पादक के लिए ऐसी समितियों से जुड़ी हुई हैं। अपने सहकारी मॉडल के माध्यम से ये सहकारी समितियाँ नेतृत्व की भूमिकाएं, कौशल विकास और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका और मजबूत होती है।

सहकारी मॉडल को बढ़ावा देने में भारत का नेतृत्व भारत ने लंबे समय से आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के साधन के रूप में सहकारी समितियों के मूल्यों को पहचाना है। नई दिल्ली में आयोजित आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी



आज की बात



मुरलीधर मोहोले
केंद्रीय सहकारिता एवं
नारटिक उद्यम राज्य मंत्री

की उपस्थिति ने सहकारी आंदोलन के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को उजागर किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के शुभारंभ के दौरान उनके संबोधन ने एक आत्मनिर्भर, समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण ने हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने की सहकारी क्षेत्र की क्षमता पर भी प्रकाश डाला, खासकर ग्रामीण भारत में, जहाँ सहकारी समितियाँ, कृषि और डेयरी फार्मिंग जैसे क्षेत्रों की रीढ़ बनी हुई हैं। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए लिए जा रहे कदम इस मान्यता को उजागर करते हैं कि सहकारी समितियाँ केवल अतीत की निशानी नहीं हैं, बल्कि समकालीन आर्थिक और सामाजिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

सहकारी से समृद्धि का विज़न : भारत के सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण

प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन ने देश के सहकारी परिदृश्य को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके कुशल दिशानिर्देशों में, भारत एक आधुनिक सहकारी ढांचे की ओर बढ़ रहा है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुरूप है। सहकारी समितियों की पहुँच और प्रभावशीलता का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की प्रधानमंत्री और सहकारिता मंत्री की सोच तेजी से डिजिटल होती दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियों का भविष्य, बदलते समय के साथ इनके विकसित होने, और दक्षता में सुधार के लिए आधुनिक उपकरणों को समाहित करने की उनकी क्षमता में निहित है।

वैश्विक एजेंडा: सहकारिता और सतत विकास लक्ष्य

वैश्विक विकास लक्ष्य जब आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक अशांति से जुड़ा रहा है, तो सहकारिता, विकास के लिए एक वैकल्पिक मॉडल पेश करती है जोकि समावेशी, लोकतांत्रिक और लचीला है। सहकारी मॉडल का जोर एकजुटता, आपसी सहयोग और लोकतांत्रिक भागीदारी पर है, जो इसे प्रमुख वैश्विक समस्याओं को संबोधित करने के लिए अद्वितीय बनाता है। सहकारी समितियाँ वित्तीय लाभ से अधिक लोगों की प्रार्थमिकताओं पर जोर देती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक गतिविधियों के लाभ और व्यापक रूप से वितरित हो सके, जिससे वंचित सशक्त बनें और सामाजिक अंतर को कम करने में मदद मिले। सहकारिता आंदोलन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़कर भारत ने खुद को सतत और समावेशी विकास के लिए वैश्विक अधिवक्ता के रूप में स्थापित किया है। संक्षेप में, सहकारिता एक समावेशी और टिकाऊ वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाती है।

आगे की राह : एक सहकारी भविष्य

सहकारिता केवल एक आर्थिक उपकरण नहीं है - वह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 'सहकारी से समृद्धि' के विज़न से ही 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश को एक बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया बनाई जा सकती है जहाँ विकास को साझा किया जाता है, जहाँ असमानताएँ न्यून होती हैं और जहाँ समुदाय सहकार से सशक्त होकर जनमानस समृद्ध होते हैं।

अलग बात

साइबर अपराध में बच्चों की भागीदारी एक सामाजिक चेतावनी

मे वात क्षेत्र में नाबालिग बच्चों का साइबर ठगी में उपयोग एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है। यह मुद्दा न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रहा है, बल्कि समाज के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। 13 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे, जो शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते थे, अब अपराध की जटिल गलियों में भटकने लगे हैं। टग गिरोह इन बच्चों की मासूमियत और तकनीकी कौशल को हथियार बनाकर उन्हें जटिल साइबर अपराधों में धकेल रहे हैं। ये गिरोह योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को फर्जी सिम कार्ड का उपयोग, बारकोड हैकिंग और ऑनलाइन ठगी जैसे कार्यों में प्रशिक्षित कर रहे हैं। इन बच्चों को अक्सर दुरस्थ क्षेत्रों में ले जाकर अपराध के लिए तैयार किया जाता है, जहाँ उनकी मासूमियत का शोषण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी इस समस्या की जड़ है। इन इलाकों में न तो बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध है और न ही उन्हें यह सिखाने का कोई साधन है कि तकनीक का उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए कैसे किया जा सकता है। शिक्षा के अभाव में बच्चे आसानी से अपराधी तत्वों के प्रभाव में आ जाते हैं। तकनीकी ज्ञान और सही दिशा-निर्देश की कमी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। टग गिरोह इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बच्चों को जल्दी धन कमाने के झूठे सपने दिखाते हैं। बच्चों की जिज्ञासा और नई चीजें सीखने की तीव्र क्षमता का दुरुपयोग कर, ये गिरोह उन्हें साइबर अपराधों में फंसा देते हैं। माता-पिता की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। व्यस्त जीवनशैली के कारण वे बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने में असमर्थ रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कठिनाइयों के कारण माता-पिता का अधिकतर समय आजीविका अर्जित करने में व्यतीत होता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर टग गिरोह बच्चों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इन गिरोहों को यह भली-भांति पता होता है कि बच्चे नई तकनीकों को जल्दी सीखने और उपयोग करने में माहिर होते हैं। यही कारण है कि वे अपराधी गिरोह बच्चों को अपने उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षित करने में सफलता पाते हैं। इस समस्या का समाधान केवल शिक्षा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाना आवश्यक है। उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि उनके कौशल और ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में किया जा सकता है। कोडिंग, वेब डिजाइनिंग, एप्लिकेशन विकास और सॉफ्टवेयर निर्माण जैसे कौशलों में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जब बच्चों को यह सहसा होना कि उनकी प्रतिभा समाज के लिए उपयोगी हो सकती है, तो वे अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित होंगे। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। (ये लेखक के निजी विचार हैं)



पू. आरके जैन 'अरिजीत'

आपकी बात


जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे...

आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। इसलिए जो भी हम आज कर रहे हैं। इस बात को सदैव नजर में रखकर किया जाना चाहिए कि कल हम नहीं रहेंगे। जब हम दिसंबर 1989 में जीवन के सफर पर चलने की तैयारी कर रहे थे, तब मेरे बड़े पापा ने यह सीख दी थी। आज 35 साल बाद उनकी सीख हमारे जीवन कर्म को निर्देशित करता है। कल उनसे कुछ पलों की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा- हम जब ना रहेब नु, त जहां भी रहइह, अईड जखर (जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो तुम जरूर आना)। पहली बार लगा कि जिंदगी, जिंदगी का प्रेम, जिंदगी का लगाव और संबंध सब सपने हैं। काल हर एक चीज को अपने साथ ले जाता है, जो जीवन में जटिल होता है। समय के पथ पर कोई भविष्य और अतीत नहीं है। बस वर्तमान है। जीवन का व्याकरण उसको विभिन्न कालों में बांटता है। परंतु यह काल संबंध को सदैव अमर बना देता है। हमारे कुल का हर एक कोई उनके समक्ष आकार में लघु है। एक व्यक्ति जो महाभारत के भीम की तरह किसी अज्ञात से प्रतिज्ञाबद्ध होकर जीवन जीता चला जाए। ऐसे लोग काल की किसी भी धारा में सदैव ही अमरता का बोध देते रहते हैं। जीवन में कभी-कभी हमें इस यात्रा पर विचार करना चाहिए। बचपन में एक कविता पढ़ी थी। बड़े पापा से बात करते हुए वह स्मरण हो आया- दग देख जहां तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है। फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलता है। मैं आज चला, कल-परसें सब, मंझधार न जाने क्या होगा? इस पार प्रिये तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा? जब हम नहीं जानते तो चिंता क्या करना है? योगानंद परमहंस अपने लेख 'परिवर्तनशील जगत में समभाव' में लिखते हैं- इस पृथ्वी पर रह रहे अधिकांश लोग सौ साल पहले यहां नहीं थे। हमसे पहले यहां और कोई थे। सौ साल बाद इस पृथ्वी पर कोई और, लोग रहेंगे। हमारे लिए सबकुछ समाप्त हो जायेगा। नई पीढ़ी हमारे बारे में सोचेगी भी नहीं। वे ये ही सोचेंगे कि यह संसार उन्हीं का है, जैसा हम सोचते हैं। परंतु एक-एक कर उन्हें भी यहां से जाना होगा। इस अस्तित्व में हमारा आकार एक बुलबुला की तरह है। विपरीत स्थिति में शांति और अच्छाई कष्ट प्रकृति व्यक्त को ब्रूती बनाता है और बड़े पापा को अच्छा बनाता। चीनी दार्शनिक लाओत्से की जब कुछ कहने के लिए मजबूर किया गया, तो उन्होंने कहा था कि सत्य कहा नहीं जा सकता...। इसे लिखना तो और भी बड़ा मजाक हो जायेगा। वह हिमालय आना चाहते थे, लेकिन सीमा पर सिपाही बिना टैक्स दे जाने नहीं देना चाहता था। जब उनको कुछ कहने के लिए मजबूर किया तो लाओत्से ने कुछ सूत्र वाच्य कहे जो 'ताओ तै किंग' किताब बना। इसमें वह कहते हैं कि सच्चा व्यक्ति महान नहीं बनना

चाहता। बड़े पापा का जीवन भी ऐसा ही है। 75 साल से ज्यादा के सार्वजनिक जीवन में कई ऐसी कथाएँ हैं, जो जीवन के मूल सत्य, मनुष्य का असली स्वभाव और जिंदगी में यायावरी के बीच रस और रंग से परिचय कराता है। जीवन के शुरूआती दौर में उन्होंने न केवल उसे देखा, बल्कि महसूस किया, जो सामान्य लोग नहीं देख सकते हैं। अपने किशोरावस्था में ही उन्होंने ज्ञान की गहराइयों को छू लिया, जहाँ पहुँचने के लिए सामान्य लोग को उम्र के दशकों लग जाते हैं। जीवन समस्याओं की एक कभी न खत्म होने वाली धारा है। जिसका सामना करना, उससे पार पाना और उसका समाधान करना होता है। शतायु के करीब होने के बाद भी उनका कर्ममय जीवन बताता है कि समस्याएँ ही हैं जो हमें व्यस्त रखती हैं और हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। आजादी के कालखंड में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने, तब छपरा जैसे शहर में संघ का नाम भी नहीं था। बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में आत्माओं के रहस्यात्मक दुनिया का अन्वेषण किया। इसके शिखर पर रहकर जीने की लक्ष्यो के लिए वह सब छोड़ दिया। जीवन जीने की सबसे बड़ी कला अच्छे जीवन की तलाश है, तो अच्छा जीवन क्या है? अच्छे और अच्छे तरीके से जब हम दैनिक जीवन को जीते हैं तो हम सच्चे बनते हैं। ऐसा जीवन जो जीने में अच्छा लगता है, जो सार्थक लगता है। यह उन लक्ष्यों की ओर बढ़ता है जिन्हें कोई वास्तव में मूल्यवान मानता है, और जो व्यक्ति के अपने जीवन के आसपास के लोगों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। अच्छा जीवन में आंतरिक और बाहरी दृष्टिकोण होता है। आंतरिक दृष्टिकोण में जीना वास्तव में सार्थक लगता है और बाहरी दृष्टिकोण यह है कि इसके आसपास के लोगों पर इसका प्रभाव रचनात्मक होता है। बड़े पापा के जीवन में पचास के दशक से आज तक समस्याओं की कमी नहीं रही। छह भाई और दो बहनों के बीच सबसे समझदार और दुनियादारी का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। अपने भाई-बहन के जीवन संवारने से लेकर अगले तीन पीढ़ियों तक दशकों की तरह कष्ट उठाए। परिवार और परिवार के बाहर समाज के लिए सदैव चिंतित रहना उनका स्वभाव रहा। साठ के दशक में संयुक्त परिवार के लिए अपना पूरा वेतन देना हो और अपने परिवार के खर्च चलाने के लिए टियूशन पढ़ाने की बात हो। आज शायद ही कोई इस अज्ञाकारिता पर विश्वास करे। आज भी आप जब बात कीजिए एक आशावाद दिखेगा। परिवार के प्रति आस्था तो समाज की सकारात्मकता का विश्वास। इन दोनों आ्याम के बीच देश के लिए कुछ कर गुजरने के सवाल पर सदैव आग रहना उनकी मनोवृत्ति रही। उनके जीवन में सदैव ही अच्छे जीवन, सद्गुणों और अच्छे कर्मों के बीच अंतर दिखेगा। वह जीवन के हरेक निर्णायक पड़ाव में जब कर्तव्य और आनंद की बात आती, वे हरक्यूलिस की तरह आनंद के बजाए कर्तव्य का चुनाव करते रहे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

फेसबुक वॉल से



X से



आज का दोहा

विक्रम झूठ न बोलना, वयों है ऐसा हाल? उतर जिन्से चाहिए, करते वही सवाल। सोमदत्त शर्मा, गाजियाबाद (उ.प्र.)


रचना भेजिए

समाचारों के संबंध में शिकायत, सुझाव या इस पेज के लिए आर्टिकल कृपया भेजें article.rnmail@gmail.com काल/ व्हाट्सएप 82925 53444। -संपादक

देश की बात

राजनैतिक पूंजी गंवा चुकी 'आआपा' के समक्ष किला बचाने की चुनौती

दिल्ली की सत्ता पर पिछले दस साल से काबिज आम आदमी पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अण्णा हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से जन्मे इस राजनैतिक दल के नेता खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। जिस राजनैतिक जमा पूंजी के साथ इस राजनैतिक दल का गठन किया गया था, बीते एक दशक में ही उसके नेताओं ने इसे पूरी तरह गंवा दिया है। पार्टी की स्थापना के समय जो उच्च नैतिक मानदंड और आदर्श स्थापित किया गए थे वे दूर-दूर तक पार्टी नेताओं के व्यवहार में नजर नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल विपक्ष के साथ-साथ अपने पूर्व सहयोगियों के भी निशाने पर हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान अण्णा हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। उस समय टू जी स्पेक्ट्रम, कामनवेलथ गेम्स, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी और कोयला घोटाले जैसे लाखों करोड़ रुपये के घपलों के समाचार लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रहे थे। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुए घोटालों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट और न्यायालय के आदेशों से लोगों को लगने लगा था कि सत्ता के शोषण पर बैटुं लोग या तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त या भ्रष्टाचारियों को उनका संरक्षण प्रदान है। लगातार दूसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होने से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का दंभ चरम पर था। भ्रष्टाचार से जुड़े हर सवाल के जवाब में वे एक ही बात कहते नजर आते थे कि 2009 के आम चुनाव में दूसरी बार सत्ता सौंप कर देश की जनता ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में समाजसेवी अण्णा हजारे के नेतृत्व में इण्डिया अगेस्ट करणन के बैनर तले दिल्ली के जन्त-मन्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन की सिर्फ एक मांग थी कि देश में जनलोकपाल बनाया जाए। असीम शक्तियों से सम्पन्न यह जनलोकपाल देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। इसी समय योग गुरु बाबा रामदेव ने भी विदेशों में जमा कले धन को वापस लाने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन शुरू किया। जिसे सरकार ने निर्माता पूर्बक कुचल दिया। देश की जनता राजनेताओं, बड़े कॉर्पोरेट घरानों और नौकरशाही की दुर्बुध् सिंधि से दिनों-दिन बढ़ते भ्रष्टाचार को अपने दैनिक जीवन में महसूस कर रही थी। जनलोकपाल का जो खाका अण्णा हजारे के आंदोलन के समय पेश किया गया उसे देख कर लोगों ने महसूस किया कि इससे भ्रष्टाचार की समस्या पर काफी हद तक



काबू किया जा सकेगा। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस के नेताओं ने जनलोकपाल बचाने की मांग का उपहास करते हुए आंदोलन से जुड़े नेताओं को खुद राजनीति में आकर इस तरह का कानून बनाने की चुनौती दी। अण्णा आंदोलन को देशभर में मिले व्यापक जनसमर्थन और तत्कालीन सत्ताधारी दल कांग्रेस के विरुद्ध तैयार हो रहे जनमत से उत्साहित आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं ने राजनैतिक क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को साफ करने के लिए लिए स्वयं इस दलदल में उतरने की योजना बनाई। हालाँकि अण्णा हजारे इस आंदोलन से जुड़े लोगों के राजनीति में उतरने के विचार से सहमत नहीं थे। वैकल्पिक राजनीति के नए विचार के साथ अरविन्द केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी आदि ने एक नया राजनैतिक दल बनाने की योजना तैयार की और इसे नाम दिया गया- आम आदमी पार्टी। इस राजनैतिक दल की औपचारिक घोषणा के लिए दिन चुना गया 26 नवम्बर 2012 का ताकि देश की जनता को भारत के संविधान के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता का सीधा संदेश दिया जा सके। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को ही देश के संविधान को स्वीकृति प्रदान की थी। इसी समय पार्टी की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए अरविन्द केजरीवाल ने कहा था इहम आम आदमी हैं। अगर वामपंथी विचारधारा में हमारे समाधान मिल जायें तो हम वहां से विचार उधार ले लेंगे और अगर दक्षिणपंथी विचारधारा में हमारे समाधान मिल जायें तो हम वहां से भी विचार उधार ले लेंगे। आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय सबसे ज्यादा जोर देते हुए कहा गया कि अब तक देश की सत्ता पर काबिज रहे राजनैतिक दलों में तमाम प्रकार के दुर्गुण आ गए हैं। नया दल इन दुर्गुणों से मुक्त रहकर नए प्रकार से राजनीति करते हुए देश को वैकल्पिक राजनीति का मॉडल देगा। उस समय ऐतान किया गया कि इस दल में 'हाई कमान कल्चर' नहीं होगा, सभी निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। पार्टी नेताओं को भ्रष्ट आचरण से दूर रखने के लिए पार्टी का अपना लोकपाल होगा जो सभी नेताओं की निगरानी करेगा। बड़े-बड़े आदर्शों के साथ शुरू हुई आम आदमी पार्टी ने चंद महीनों के भीतर खुद को पारंपरिक राजनीति के अनुरूप ढालना शुरू कर दिया। (ये लेखक के निजी विचार हैं)

श्रद्धालुओं को मिल रहा स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन

एजेंसी। महाकुम्भ नगर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में महाकुम्भ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 5 जेन और 25 सेक्टरों में बांटकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक सेक्टर में फूड सेफ्टी ऑफिसर तैनात हैं, जो परसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच कर रहे हैं। सेक्टर 24 में संकट मोचन मार्ग पर स्थित ऑफिस से फूड सेफ्टी की सभी व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। वहीं से खाद्य पदार्थों की निगरानी और टीमों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सहायक खाद्य आयुक्त ग्रेट 2 सुशील कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुरक्षा या मिलावटी भोजन से बचाने के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स का उपयोग किया जा रहा है। ये मोबाइल लैम्ब मेला क्षेत्र में भोजन और पेय पदार्थों की ऑन-स्पॉट जांच कर रही हैं।



श्रद्धालुओं की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध

- मेला क्षेत्र को 5 जेन में बांटकर खाद्य निगरानी
- हर सेक्टर में फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैनाती
- हर 5 सेक्टर पर एक चीफ ऑफिसर की निगरानी
- झूंसी क्षेत्र में सबसे अधिक 14 सेक्टर सक्रिय

होटलों और ढाबों पर कड़ी निगरानी

होटलों, ढाबों और छोटे खाद्य स्टॉल्स पर बज रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच हो रही है। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

कांग्रेस का 5 मंजिला नया मुख्यालय है 9ए, कोटला रोड पर

● ग्रांड फ्लोर पर है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम वाली लाइब्रेरी

ब्यूरो

नई दिल्ली। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय दफ्तर 'इंदिरा भवन' का उद्घाटन बुधवार को हो गया। इसका पता है 9ए, कोटला रोड। यह आईटीओ के पास है। मालूम हो कि बीते 47 वर्ष से कांग्रेस का मुख्यालय 24, अकबर रोड रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका सहित तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। इसका नाम इंदिरा भवन रखा गया है। कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत बड़ा मौका है, जब पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में अपना नया मुख्यालय खोला है। इसलिए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश भर से पार्टी के नेता दिल्ली पहुंचे। कार्यक्रम में कांग्रेस वरिष्ठ कमेटी, कांग्रेस के विपक्ष व स्थानीय आर्गनाइज्ड सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटीयों के पदाधिकारी, एआईएससी के पदाधिकारी, पार्टी के सभी सांसद, पूर्व सांसद, मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों सहित संगठनों से जुड़े तमाम

पदाधिकारी शामिल रहे। कांग्रेस का यह नया दफ्तर पार्टी की जरूरतों को देखते हुए तैयार किया गया है। इसमें तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। रही बात 24, अकबर रोड के पुराने दफ्तर की, तो इससे कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं की ढेर सारी यादें जुड़ी हैं। इस दफ्तर से ही इंदिरा गांधी ने देश की सत्ता में वापसी की। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मौत, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी का कम उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभालना और तमाम राजधानी की गलतियां कांग्रेस अध्यक्ष बनना, कांग्रेस का कई सालों तक केंद्र में गठबंधन की सरकार चलाना और फिर पिछले 11 सालों से सत्ता से बाहर होना, ऐसे तमाम उतार-चढ़ावों का गवाह कांग्रेस का यह पुराना दफ्तर रहा है। यह दफ्तर कांग्रेस को आपातकाल के बाद मिला था। उस समय इंदिरा गांधी के पास केवल गिने-चुने नेता बचे थे और कांग्रेस टूट चुकी थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में अपने धड़े को अकबर रोड पर स्थित एक सरकारी आवास - टाइप 7 बंगले में शुरू किया था। इस 24, अकबर रोड का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। आजादी से पहले वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर रोजेनाल्ड मैक्सवेल यहाँ रहते थे। वर्ष 1960 के दशक में इस बंगले में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू थी अपने बचपन के दिनों में रही थीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि

वर्ष 1961 में उनकी मां को भारत में राजदूत नियुक्त किया गया था। पत्रकार रशीद क़िदवाई ने अपनी किताब में लिखा है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने पार्टी मुख्यालय को डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित एक मॉडर्न दफ्तर में ट्रांसफर करने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन, 1991 में उनकी मौत के बाद ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद के सालों में जरूरतों के हिसाब से 24, अकबर रोड में कई जरूरी निर्माण किए गए। जहाँ तक नए मुख्यालय की बात है तो कांग्रेस नेताओं के मुताबिक - 9ए, कोटला मार्ग पर यह दफ्तर दो एकड़ जमीन पर बना है। इंदिरा भवन के निर्माण का कार्य 1 दिसंबर 2016 से शुरू हुआ जो 15 जनवरी 2025 को पूरा हुआ है। कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर एक 'ग्रीन बिल्डिंग' बताया जा रहा है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल है। इस पांच मंजिला इमारत की दीवारों पर आजादी के संघर्ष से लेकर वर्तमान समय तक पूरे 140 साल का इतिहास छपा हुआ है। कार्यालय में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र वर्नानी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तस्वीरें दिखेंगी। इसके बाद हर मंजिल पर महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंहा राव, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जैसे बड़े नेताओं के योगदान की तस्वीरें

व इतिहास की जानकारी लिखी मिलेगी। इस बिल्डिंग का निर्माण एलएंडटी व हाफिन कंस्ट्रक्टर ने मिल कर किया है। इस बिल्डिंग को डिजाइन करने में प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ऑफिस है। चौथी मंजिल पर कांग्रेस महासचिवों के कार्यालय बनाए गए हैं। इसके अलावा, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस जैसे पार्टी के प्रमुख संगठनों के प्रमुखों के लिए इसी मंजिल पर कमरे बने हैं। तीसरी मंजिल पर किसी का कार्यालय नहीं है, बल्कि एक 'ओपन ऑफिस' बनाया गया है, जहां सचिव व प्रभारी बैठेंगे। दूसरी मंजिल पर पार्टी के कई अन्य विभागों व सेल के लिए जगह बनाई गई है और पहली मंजिल पर आईटोरियम है। खास बात है कि कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के ग्रांड फ्लोर पर एक लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसका नाम दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। इसी फ्लोर पर जॉफिंग रूम व कैफेटेरिया भी है। इससे पहले 24, अकबर रोड पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस का कार्यालय रहा। इसमें मीडिया को केवल ग्रांड फ्लोर तक ही जाने की अनुमति होगी। इस व्यवस्था को भाजपा ने अपने नए मुख्यालय में लागू किया है। शायद उसी को देख कांग्रेस ने भी लागू किया है।

परिवार की पसंद के लड़के से शादी करने से इनकार पर युवती की हत्या

एजेंसी। ग्वालियर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 20 वर्षीय एक युवती की उसके पिता और चचेरे भाई ने इसलिए कथित तौर पर हत्या कर दी क्योंकि उसने परिवार द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। शहर पुलिस अधीक्षक नागेन्द्र सिंह सिकरवार ने बताया कि घटना मंगलवार रात गोल्ला का मंदिर इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि पीड़िता तनु गुर्जर की 18 जनवरी को शादी होनी

थी, लेकिन वह अपने परिवार द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। अधिकारी ने बताया कि उसकी अपने पिता से तीखी बहस हुई, जिसके बाद पिता ने कथित तौर पर उसे गोली मार दी। तनु के चचेरे भाई राहुल ने भी पिस्तौल से उसे गोली मार दी। सीएसपी ने बताया कि राहुल भाग गया, जबकि मृतका का पिता महेश सिंह गुर्जर (45) मौके पर ही हथियार लहराता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि महिला को चार गोयियां लगी हैं।

आज का राशिकल

मेघ: मन प्रसन्न बना रहेगा। अचल संपत्ति की खरीद अथवा कृषि उद्यम में रुचि पैदा होगी। परिवार के साथ मनोरंजनिक स्थल की यात्रा होगी। आपसी प्रेमभाव में बढ़ती होगी। भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श होगा।

शुभ: को का सहयोग प्राप्त होगा। सभी का सहयोग मिलेगा।

दुःख: दिन-भर का माहौल आडंबरपूर्ण और व्ययकारी होगा। वरिष्ठ लोगों से कहासुनी के कारण तनाव पैदा हो सकता है। संपत्ति भाषा का झूठे झगड़े। कुछ कार्यक्रम बदलने होंगे। आगे में आकर किये गए कार्यों का मलाल, अवसाद होगा। उदात्तलेखन से बचें। प्रेमभाव बढ़ेगा।

मिथुन: घर के सदस्य मदद करेंगे और साथ ही आर्थिक बढ़ाली से भी मुक्ति मिलने लगेगी। प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा। मनोरथ सिद्धि का योग है। अवरूढ़ कार्य संपन्न हो जाएगा। सभी-सोसायटी में सक्रमान मिलेगा। पर-प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे।

कर्क: सामाजिक कार्य संपन्न होंगे। प्रेमभाव बढ़ेगा। अमोद-प्रमोद का दिन होगा और व्यावसायिक प्रगति भी होगी। सभा-गोष्ठियों में मन-सकमान बढ़ेगा। धार्मिक अभिषेक। जान-विज्ञान की इच्छा होगी और सज्जनों का साथ भी रहेगा। स्त्री-संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा।

सिंह: कुछ कार्य भी सिद्ध होंगे। व्यर्थ की भाग-दौड़ से यदि बचा ही जाए तो अच्छा है। प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा। अवरूढ़ कार्य संपन्न हो जाएगा। महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। भाई-बहनों का प्रेम बढ़ेगा। स्वास्थ्यिक से कार्य करें। दुर्लभ स्वप्न साकार होगा।

कन्या: आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते हैं। कोई प्रिय वस्तु अथवा नौकरें वस्त्रभूषण प्राप्त होंगे। सभा-गोष्ठियों में मन-सकमान बढ़ेगा। धार्मिक आस्थाएँ फलीभूत होंगी। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलेगा।

तुला: व्यापार में स्थिति नरम रहेगी। शत्रुत्व, चिंता, संतान को कष्ट अपव्यय के कारण बर्बाद। भातृपक्ष में दारिद्र्य होने की संभावना है। आय-व्यय समान रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यर्थ प्रयास में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। मेल-मिलाप से कोशिश सफल होगी।

वृश्चिक: कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। मान-सकमान में सुदृढ़ होंगे। अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे। अपने हित के काम सुबह-सवेरे ही निपार लें, क्योंकि आगे कामकाज सीमित तौर पर ही बन पाएंगे। स्वास्थ्य का प्रायः कांजीर बना रहेगा।

धनु: यात्रा प्रवास का सार्थक परिणाम मिलेगा। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। समाज में मान-सकमान बढ़ेगा। नौकरें जिम्मेदारी बढ़ने के आसार रहेंगे। अपने काम को प्राथमिकता से करें चिंतीय वातावरण से मुक्ति मिलेगी।

मकर: मेहनताना का आगमन होगा। राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। नैतिक दारिद्र्य में रहे। मेहनतानों का आगमन होगा। पुरानी गलतियों का पश्चात्त होगा। विवाहियों को लाभ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। वाहन चालन में सावधानी बरतें। आय के अच्छे योग बनेंगे। सफलता मिलेगी।

कुंभ: परिवारजन का सहयोग व समन्वय का स्थिति को बनाना आसान रहेगा। समाज में मान-सकमान बढ़ेगा। आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। शैक्षणिक कार्य आसानी से पूरे होते रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। जागरण का वातावरण बनेगा। सफलता मिलेगी।

मीन: अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा में आशातुल्य कार्य होने में संदेह है। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरियों में पदोन्नति की संभावना है। शरीरिक स्वास्थ्य बढ़े तो ज्यादा जगत है। शारीरिक सुख के लिए व्यसन का त्याग करें। इच्छित कार्य सफल होंगे। सुख-आनंद का एक समय है।

नेपाल पुलिस ने जब्त की 3 लाख से अधिक की प्रतिबंधित दवाएं

एजेंसी। अररिया



बिहार में नेपाल की सीमा से सटे जंगल में नेपाल पुलिस बॉर्डर होकर नेपाल तस्करों को जबाब देना है। नेपाल पुलिस बल के जवानों ने बुधवार को जब्त किया। तस्कर चीनी के बोरे में छिपाकर तस्करों कर मटियरवा बॉर्डर से नोमैस लैंड एरिया पहुंचा ही था कि नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने चीनी के बोरे में छिपाकर रखे प्रतिबंधित दवाओं को जब्त कर लिया। जबकि मौके से तस्कर भागने में कामयाब रहे। यह कार्रवाई प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म रानी की टीम के द्वारा की गई नेपाल में प्रतिबंधित जब्त दवा की कीमत तीन लाख से अधिक भारतीय करेंसी में बताई जाती है। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म रानी के प्रमुख डीएसपी ऋषिकेश राउत के अनुसार नेपाल भारत सीमा

मे तस्करों के द्वारा चीनी के बोरा के अंदर घेरलू कार्य में प्रयोग होने वाले खाद्यान्न सामग्री के तरह पैकिंग कर भारत सीमा से नेपाल सीमा में प्रवेश कर रहा था। पुलिस की चेकिंग देख तस्कर नोमैस लैंड एरिया में साईकल छोड़ भारत के तरफ फरार होने में कामयाब रहा। बरामद दवा बोन कार्ट नामक है, जो नेपाल में प्राणघातक की सूची में रख कर प्रतिबंधित किया हुआ है। बरामद दवा 2 हजार पत्ता में कुल 30 हजार टैबलेट बताया गया है। डीएसपी ऋषिकेश राउत के अनुसार यह दवा कौन किस परिवोजना के लिए मंगवा रहा था, इसकी अनुसंधान नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा की जा रही है।

252 करोड़ की लागत से बना कांग्रेस का पांच मंजिला मुख्यालय

'स्कूल आफ डेमोक्रेसी' है कांग्रेस मुख्यालय : मल्लिकार्जुन खरगे

243 तस्वीरों में है 140 साल का इतिहास

एजेंसी। नई दिल्ली

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली में 9ए, कोटला रोड स्थित पार्टी के नए मुख्यालय (इंदिरा गांधी भवन) का फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे पहले पार्टी का ध्वजारोहण किया गया और झंडा गीत तथा राष्ट्र गान हुआ। इस अवसर पर सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन खरगे ने उपस्थित कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक क्षण है। पिछले 47 वर्षों से कांग्रेस का मुख्यालय 24, अकबर रोड में रहा है। आज मुख्यालय का उद्घाटन हमारी पार्टी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इंदिरा गांधी भवन के नाम से पार्टी का स्थायी दफ्तर बनाया हम सबके लिए गर्व की बात है। यह भवन उसी इलाके में बना है, जहां हमारे महान नायकों ने सोचा था। 31 दिसंबर 1952 को पं. जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में यह तय हुआ था। उस दिन की आवाज थी कि इसी क्षेत्र में कांग्रेस मुख्यालय बने। नेहरू की उस खाशाहश को आज सोनिया गांधी ने पूरा किया। इसका आधारशिला 28 दिसंबर 2009 को कांग्रेस के 125वें वार्षिक दिवस पर सोनिया गांधी की देखरेख में रखी गई थी। इसलिए हमने उनसे उद्घाटन करने के लिए भी अनुरोध किया।



● सोनिया गांधी ने पार्टी के नए राष्ट्रीय मुख्यालय का किया उद्घाटन

राहुल के 'इंडियन स्टेट' बयान को भाजपा ने देश तोड़ने वाला कहा

नई दिल्ली। इंडियन स्टेट को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी घिरेते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा इस बयान को लेकर हवालावर है। बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी का बयान देश को तोड़ने वाला है। जात हो कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक मुख्यालय 'इंडिया भवन' में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए बुधवार को भाजपा और आरएसएस को घेरते हुए 'इंडियन स्टेट' को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से ही नहीं, इंडियन स्टेट से भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई उनके अपने नेता द्वारा उजागर हो गई है। राहुल गांधी की इस बात के लिए सराहना करता हूँ कि उन्होंने वह बात साफ-साफ कही है, जो देश जानता है कि वे भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो भारत को बंदनाना, अपनाजित करना चाहते हैं।

फिर राष्ट्र निर्माण का कार्य हुआ, जिसके लिए महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे कई लोगों ने शहादत दी। खरगे ने कहा कि इस साल देश के संविधान के 75 साल और गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे हो रहे हैं। अपने विचारों की ताकत पर कांग्रेस कायम है। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद आदि हमारी विरासत हैं। नेहरू की अगुवाई में किए गए प्रयासों से ही देश सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। अंबेडकर ने बुनियाद का सबसे बेहतरीन संविधान दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान जय किसान' की थ्योरी

साधारण भवन नहीं है नया मुख्यालय : राहुल

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि नया मुख्यालय कोई साधारण भवन नहीं है, बल्कि यह देश की मिट्टी से निकला है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली, यह हर एक भारतीय का अपमान है। अब समय आ गया है कि हम इस बकवास को सुनना बंद कर दें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वे बस रटते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे।

स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र को वर्ष 1974 में लिखे पत्र में कहा था मैं भारत के कुंभ मेले में जाना चाहता हूँ

- जेन, बुद्धिज्म व अध्यात्म के बारे में जानना चाह रहे थे स्टीव
- 51 साल पुराना पत्र वर्ष 2021 में 4.32 करोड़ में हुआ था नीलाम

टिम को लिखा गया स्टीव जॉब्स का पत्र



टिम, मैंने तुम्हारा खत कई बार पढ़ा है। मैं क्या कहूँ, मैं नहीं जानता। बहुत सारी सुबहें हुईं और चली गईं हैं, लोग आए और चले गए। मैंने बहुत बार प्यार किया और कई बार मैं रोया हूँ। हालांकि, किसी भी तरह, इन सबसे पूरे एक बात है, जो बदलती नहीं है - वया आप समझते हैं? फिलहाल मैं लॉस गेटोस और सैंटा क्लूज के बीच पहाड़ों में बने एक फार्म हाउस में रह रहा हूँ। मैं भारत में अप्रैल में लगने वाले कुंभ मेले में जाना चाहता हूँ। मैं मार्च में किसी एक निकल जाऊंगा, लेकिन अभी तक कुछ निश्चित नहीं है। अगर तुम चाहे, और तुम्हारे पहुंचने तक मैं अभी भी यहां हूँ, हम यहां पहाड़ों में साथ रह सकते हैं और तुम मुझे अपने विचारों और अहसासों के बारे में बता सकते हो, जो मैं तुम्हारे खत से पूरी तरह नहीं समझ सकता। यहां दूसरे कमरे में आग जल रही है और मुझे ठंड लग रही है। मैं यह कहकर बात खत्म करना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें।

शान्ति स्टीव जॉब्स

है। वर्ष 1974 में इस पत्र को स्टीव ने उस समय लिखा था, जब वह जेन, बुद्धिज्म व अध्यात्म के बारे में जानने-समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी वर्ष स्टीव जॉब्स भारत भी आए थे और उत्तराखंड में कैची धाम में नीम करोली बाबा के आश्रम भी गए थे। जबकि, उनको पता था कि एक साल पहले 1973 में ही नीम करोली बाबा का निधन हो गया था। स्टीव जॉब्स कैची धाम में रुके और नीम करोली बाबा की कही बातों को जानकर उससे इच्छा व्यक्त की। लोग कहते हैं कि इस यात्रा ने स्टीव जॉब्स के जीवन को बदलकर रख दिया, जिसका उनके निजी व व्यावसायिक जीवन पर

बड़ा असर पड़ा। हालांकि, स्टीव जॉब्स कभी कुंभ नहीं आ सके, लेकिन अब उनकी पत्नी ने विगत 13 जनवरी को प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में पहुंचकर शायद उनके इस सपने को पूरा किया है या उनके जिज्ञासा को जीने-समझने की कोशिश कर रही हैं। लॉरेन कुंभ में निरंजनी अखाड़े में रह रही हैं और स्वामी कैलाशानंद गिरी ने उन्हें 'हिंदू नाम 'कमला' दिया है। सफेद कपड़ों और गेरुआ शॉल लपेटे लॉरेन ने अरती, ध्यान, क्रिया योग व प्रणामाया में हिस्सा लिया। लेकिन, मकर संक्रांति को शाही स्नान वाले दिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से उन्हें एलजी हो गई।

केजरीवाल समेत कई नेताओं ने दाखिल किए नामांकन



एजेंसी। नई दिल्ली

से सरकार बनने पर दिल्ली के स्कूल, अस्पताल, बिजली और महिलाओं को सम्मान राशि देने का काम होगा। आआपा नेता संदीप पाठक ने कहा कि केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। हम माताओं-बहनों को लेकर पहले भी काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भाजपा के लोग आम आदमी पार्टी और हमारे नेताओं के खिलाफ कितनी भी साक्षिण रच लें लेकिन दिल्ली की जनता फिर से केजरीवाल को चुनने वाली है। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने भी नामांकन के पूर्व मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि केजरीवाल की जमानत जबरदस्त है। उन्होंने यहां के गरीब लोगों को धोखा दिया है और झूठीवाकियों के लिए कुछ नहीं किया है।

अंपायरों के बीच बोलिंग काउंटर का वितरण

रांची। सीनियर स्टेड पेनल अंपायर अजय कुकरती ने रांची जिला क्रिकेट संघ के सभी जूनियर अंपायर्स को बोलिंग काउंटर का वितरण किया। इससे पहले उन्होंने अंपायर सेमिनार में सभी अंपायर्स को एक अच्छे अंपायर्स को किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी।



यूथ मंथन 8 विकेट से जीता

रांची। सात्विक मेमोरियल ए डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट गोलचक्र ग्राउंड में खलारी सीए बनाम यूथ मंथन के बीच खेला गया। खलारी सीए टीम ने 23.5 ओवर में 10 विकेट पर 130 रन बनाया। सुरेश ने 27 व रन में 22 रन बनाया। तौहीद ने पांच विकेट लेकर 25 रन व वैभव ने तीन विकेट लेकर 19 रन दिया। यूथ मंथन ने 17.4 ओवर में दो विकेट पर 131 रन बनाया। तौहीद ने 89 व अमन ने 14 रन बनाया। सुमित ने एक विकेट लेकर 14 रन व युवराज ने एक विकेट लेकर 21 रन दिया। यूथ मंथन 8 विकेट से जीता।



पेस सी ने 7 विकेट से जीत दर्ज की

रांची। सरला देवी बिरला अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट नेहरू ग्राउंड में आरसीए अरिज बनाम पेस सीए के बीच 30 ओवर का खेल हुआ। आरसीए अरिज ने 29.3 ओवर में 10 विकेट पर 117 रन बनाया। हर्ष थापा ने 23 रन, शौर्य ने 22 रन व आरिफ अली ने 21 रन बनाया। देवद्विष ने 16 रन देकर 3 विकेट, आयुष्मान ने 28 रन देकर 2 विकेट, विवान जैन ने 15 रन देकर 2 विकेट, अजितेश ने 6 रन देकर 1 विकेट व पृथ्वी ने 29 रन देकर 1 विकेट लिया। पेस सीए ने 20.1 ओवर में तीन विकेट पर 118 रन बनाया। पृथ्वी ने 63 व नमन ने 14 रन बनाया। हर्ष थापा ने 23 रन देकर 1 विकेट लिया। पेस सी. ने 7 विकेट से जीत दर्ज की।



झारखंड ज्योति व जूनियर तरुण के बीच मैच हुआ टाई

रांची। लिटिल विंग्स स्कूल वी डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट प्रभाततारा ग्राउंड में झारखंड ज्योति बनाम जूनियर तरुण संगम के बीच खेला गया। झारखंड ज्योति ने 14.5 ओवर में 10 विकेट पर 87 रन बनाया। गेंदबाज में प्रिंस ने पांच विकेट लेकर 30 रन, सूरज राणा ने तीन विकेट लेकर 16 दिया। जूनियर तरुण संगम ने 22.5 ओवर में 10 ओवर में 87 रन बनाया। कोशल ने सर्वाधिक 23 रन बनाया। गेंदबाज करते हुए रफसन अंसारी ने पांच विकेट लेकर 17 रन व रिशेन ने चार विकेट लेकर 29 रन दिया। दोनों के बीच मैच टाई हो गया।



सोनेट नामकुम ने 48 रनों से जीत दर्ज की

रांची। सात्विक मेमोरियल ए डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट ओटीसी ग्राउंड में सोनेट नामकुम बनाम जेएसए के बीच खेला गया। सोनेट नामकुम ने 32.4 ओवर में 10 विकेट पर 168 रन बनाया। वहीं शुभम गुप्ता ने 59 रन, कुणाल कुमार ने 49 रन व अभिनंदन कुमार ने 20 रन बनाया। बलराम कुमार ने तीन विकेट लेकर 23 रन, श्याम प्रसाद ने तीन विकेट लेकर 28 रन व रणजीत कुमार सिंह ने दो विकेट लेकर 31 रन दिया। जेएसए ने 28.1 ओवर में 10 विकेट पर 120 रन बनाया। संजीत कुमार ने 19 रन, अमित कुमार ने 19 रन व बलराम मुंडा ने 18 रन बनाया। मुन्ना सेठ ने चार विकेट लेकर 36 रन, दिलखुश कुमार ने दो विकेट लेकर 15 रन व धीरज कुमार ने दो विकेट लेकर 24 रन दिया।

भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास एकदिवसीय क्रिकेट में बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर

तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है।

राजकोट(हि.स.)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे तीसरे एकदिवसीय मुकाबले में इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम ने पहली बार एकदिवसीय क्रिकेट में 400 रनों का आंकड़ा पार किया है। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 435 रनों का विशाल स्कोर बनाया। यह भारतीय महिला टीम का एकदिवसीय में सर्वोच्च स्कोर है। ओवरऑल महिला एकदिवसीय में यह चौथा सर्वोच्च स्कोर है। महिला एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड महिला टीम के नाम है। यह रिकॉर्ड उसने आयरलैंड के खिलाफ ही साल 2018 में बनाया था। न्यूजीलैंड महिला टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 491 रन बनाए थे। 12 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय में भारतीय टीम ने 370 रन बनाए थे जो कि टीम का एकदिवसीय में सबसे बड़ा स्कोर था लेकिन तीसरे मैच में टीम ने ये रिकॉर्ड तोड़ डाला। भारतीय महिला टीम को इस ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचाने में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल का अहम योगदान रहा। प्रतिका ने जहां 129 गेंदों में 154 रनों की पारी खेली, वहीं मंधाना ने महज 80 गेंदों में 135 रन बनाए।

आयरलैंड के खिलाफ इस सीरीज में हरमनप्रीत कौर की जगह कप्तानी कर रही मंधाना ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। भारतीय महिला टीम को सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल और कप्तान स्मृति मंधाना ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में ही टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद मंधाना ने एकदिवसीय में अपना 10वां शतक जड़ दिया। मंधाना ने महज 70 गेंदों में शतक लगाया जो भारत के लिए महिला क्रिकेट में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाया सबसे तेज शतक है। मंधाना ने इस मामले में हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ा। उन्होंने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ 87 गेंदों पर शतक जमाया था।



वीजा में देर के कारण अबू धाबी में इंग्लिश टीम के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे साकिब महमूद

नई दिल्ली(हि.स.)। इंग्लैंड के भारत दौरे से पहले, इंग्लिश तेज गेंदबाज साकिब महमूद वीजा देरी के कारण अबू धाबी में अपनी टीम के प्रशिक्षण शिविर से चूक जाएंगे। साकिब को इंग्लैंड की वनडे और टी20 दोनों टीमों में शामिल किया गया है। ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को उम्मीद है कि 22 जनवरी को सीरीज के अपने पहले टी20 मैच के लिए पूरी टीम के कोलकाता जाने से पहले वीजा की समस्या का समाधान हो जाएगा। पाकिस्तानी मूल के अंग्रेजी खिलाड़ियों के लिए वीजा में देरी एक परिचित समस्या है। इससे पहले 2024 में, इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर को वीजा मिलने में देरी के कारण हैदराबाद में भारत के खिलाफ इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया था। ईसीबी ने दिसंबर 2024 को भारत के व्हाइट-बॉल दौरे के लिए टीमों की घोषणा की, जिसमें तीन वनडे, पांच टी20 और आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शामिल है। पांच मैचों की टी-20 सीरीज 22 जनवरी को कोलकाता के इंडन गार्डन्स में शुरू होगी।



सट्टेबाजी मामले में हिरासत में लिए गए सेविता के डिफेंडर सालास

मैड्रिड(हि.स.)। सेविता के डिफेंडर किंके सालास को मंगलवार को पुलिस ने हिरासत में लिया और घोषाघड़ी के संदिह में मोरोन डे ला फ्रोंटेरा शहर की अदालत में पेश किया। 22 वर्षीय किंके सालास पर अवैध सट्टेबाजी के लिए जानबूझकर पीले कार्ड हासिल करने का संदिह है, साथ ही कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जो उनके परिवार और परिचितों के करीबी माने जाते हैं। स्पेन के एल कॉम्पिडेंशियल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार जांचकर्ताओं का मानना है कि सालास के परिवार और दोस्तों ने 10,000 यूरो प्रति माह जीतने के लिए लगभग 30 अलग-अलग दांव लगाए होंगे। जांच 2023-2024 सत्र के अंत में खेले गए कई मैचों पर केंद्रित है, जहां सालास को पिछले नौ मैचों में सात पीले कार्ड दिखाए गए थे, जिनमें से अधिकांश पीले कार्ड खेल के अंतिम मिनिटों में आए थे।



चेन्नइयन एफसी पर लीग डबल पूरा करना मोहम्मडन स्पोर्टिंग का लक्ष्य



कोलकाता(हि.स.)। मोहम्मडन एफसी की टीम बुधवार शाम अपने घरेलू मैदान किशोर भारत क्रीडांगन में खेले जाने वाले इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2024-25 मुकाबले में चेन्नइयन एफसी की मेजबान करेगी, तो उसका लक्ष्य अपना पहला लीग डबल हासिल करना होगा जबकि मरीना माचान्स किसी नई-नवेली टीम के हाथों ऐसी शर्मनाक स्थिति से बचना चाहेगी। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने अपने पिछले तीन मैचों (1 जीत, 2 ड्रा) में अपर्याप्त रहकर रक्षात्मक मजबूती दिखाई है, जिसमें उनकी पिछले अवे मैच में बेंगलूरु एफसी पर 1-0 की जीत भी शामिल है। वहीं, चेन्नइयन एफसी घर से बाहर अपने पिछले तीन मैच बिना गोल किए हारी है। मोहम्मडन एफसी 15 मैचों में दो जीत, चार ड्रा और नौ हार से 10 अंक लेकर तालिका में 12वें स्थान पर है। वहीं, चेन्नइयन एफसी 15 मैचों में चार जीत, चार ड्रा और सात हार से 16 अंक लेकर तालिका में 10वें स्थान पर है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने इस सीजन में हैडर के जरिये छह गोल खए हैं, जो संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं। चार हैडर से गोल करने वाली चेन्नइयन एफसी मेजबान टीम की इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। मोहम्मडन (26) ने चेन्नइयन एफसी (22) की तुलना में ज्यादा बड़े मौके बनाए हैं, लेकिन उसकी 19.2% की रूपांतरण दर लीग में सबसे कम है। चेन्नइयन एफसी अपने पिछले तीन अवे मैचों में गोल करने में विफल रही है। लाडिन्पुडुया प्रति मैच 6.2 बार कब्जा फिर हासिल करते हैं, अब तक 21 टेकल किए हैं।

इंग्लैंड लायंस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए की कप्तानी करेंगे जैक एडवर्ड्स

मेलबर्न(हि.स.)। न्यू साउथ वेल्स के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स को सिडनी में आगामी चार दिवसीय मैच में इंग्लैंड लायंस का सामना करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ए की 12 सदस्यीय युवा टीम का कप्तान बनाया गया है, जिसमें दो अन्य तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आरोन हार्डी और विल सट्टरलैंड भी शामिल हैं। 31 वर्षीय कर्टिस पैटरसन को भी 2020 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया ए टीम में वापस बुलाया गया है और वह टीम में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं ने युवाओं पर जोर दिया है और अक्टूबर और नवंबर में दो चार दिवसीय मैचों में भारत ए का सामना करने वाली टीम से केवल पांच खिलाड़ियों को ही बरकरार रखा है, जिसमें जॉर्डन बकिंघम, फर्गस ओ'नील, जोश फिलिप, कोरी रोचिचियोलो, ब्रेंडन डॉगिट शामिल हैं, हालांकि डॉगिट को केवल उस श्रृंखला में देर से चोट लगने पर प्रतिस्थापन के रूप में शामिल किया गया था।

व्यापार/लाइफ व साइंस

कल्याण ज्वैलर्स का शेयर हुआ धड़ाम 'छापे' और 'एफआइआर' के चलते 13 प्रतिशत तक आई गिरावट

नई दिल्ली। बुधवार को कल्याण ज्वैलर्स के शेयर में बड़ी गिरावट आई। दिन में कारोबार के दौरान यह शेयर करीब 13 फीसदी तक गिर गया। कंपनी के शेयर में पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि कल यानी मंगलवार को इसमें कुछ तेजी आई थी, लेकिन आज फिर से गिरावट आ गई। यह गिरावट उन खबरों के चलते आई है जिनमें कहा गया है कि कंपनी पर न केवल इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं बल्कि एक प्रमोटर पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों का खंडन किया है।

बढ़त के साथ हुई थी शुरुआत
मंगलवार को यह शेयर 596.80 रुपये पर बंद हुआ था। बुधवार सुबह यह 600 रुपये पर खुला। खुलने के कुछ देर बाद यह 602.80 रुपये पर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। दोपहर 3 बजे तक कारोबार के दौरान यह करीब 13 फीसदी की गिरावट के साथ 522.75 रुपये पर आ गया था। इसके बाद इसमें थोड़ा सुधार आया। दोपहर 3 बजे यह 6.86 फीसदी की गिरावट के साथ 555.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

जनवरी में आया काफी नीचे
इस शेयर में इस साल 3 जनवरी से लगातार गिरावट देखी जा रही है। 2 जनवरी को यह शेयर बढ़त के साथ 787.75 रुपये पर बंद हुआ था। आज बुधवार को दोपहर 3 बजे यह 555.85 रुपये पर कारोबार कर रहा है। ऐसे में इसमें 3 जनवरी से लेकर अब तक करीब 30 फीसदी की गिरावट आ चुकी है।

व्यों आई इतनी गिरावट?
मीडिया में आई कुछ खबरों के चलते कंपनी के शेयर में गिरावट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी पर न केवल इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं बल्कि इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन के भी आरोप लगे हैं। साथ ही यह भी खबर सामने आई कि एक प्रमोटर पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें गलत बताया है। वहीं दूसरी ओर कंपनी ने इन्वेंट्री घाटे को स्वीकार किया और कहा कि अधिकांश घाटे वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में हुए थे। कंपनी ने हाल ही में तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। इसके मुताबिक कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल के आधार पर 39 फीसदी ज्यादा रहा।

चार साल बाद बैन हटते ही रॉकेट हुआ साइकिल कंपनी का शेयर एटलस साइकिल का शेयर इस समय रॉकेट बना हुआ है इसने एक महीने में दोगुने से ज्यादा रिटर्न दिया है

एजेंसी नई दिल्ली। 20 दिन में पैसा डबल। सही पढ़ा आपने। साइकिल बनाने वाली कंपनी के शेयर ने मात्र 20 दिन में रकम दोगुनी कर दी है। इस कंपनी पर साल 2020 में ट्रेडिंग से बैन लगा था। पिछले महीने ही यह बैन हटा है। बैन हटते ही यह शेयर रॉकेट बन गया है। इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है। यह कंपनी एटलस साइकिल (हरियाणा) लिमिटेड है। आज बुधवार को भी इसमें 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा। अपर सर्किट के बाद यह शेयर सुबह 11 बजे 136.76 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कल मंगलवार को यह शेयर 130.25 रुपये पर बंद हुआ था।

●साल 2020 में लगा था बैन
इस कंपनी के शेयर पर दिसंबर 2020 में बैन लगा था। एटलस ने अपनी वित्त वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट दाखिल की थी। इस रिपोर्ट में कंपनी ने कहा था कि फाइनेंशियल रिजल्ट दाखिल न करने या दाखिल करने में देरी के कारण बीएसई और एनएसई ने 16 दिसंबर 2020 को शेयरों का कारोबार बैन कर दिया था। बीएसई और एनएसई ने पिछले साल 27 दिसंबर को एटलस के शेयरों के कारोबार पर लगा बैन हटा दिया था। यानी बैन हटने में चार साल लग गए। इसके बाद कंपनी के शेयरों में फिर से ट्रेडिंग शुरू हो गई।

आईटीसी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए डीपीआईआईटी के साथ साझेदारी की

नई दिल्ली(हि.स.)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने भारत के अग्रणी व्यापार समूहों में से एक आईटीसी लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। डीपीआईआईटी ने उद्यमिता और नवाचार को बढ़ा देने पर बड़ावा देने के लिए यह अहम कदम उठाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह समझौता ज्ञान (एमओयू) विशेष रूप से गतिशील साझेदारी का माहौल तैयार करेगा, जिसमें आईटीसी के व्यापक बाजार नेटवर्क के विशाल अनुभव और विशेषज्ञता देशभर में स्टार्टअप को सहयोग देने में डीपीआईआईटी की मदद करेगी।

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में होम टेक्सटाइल मेले में गिरिराज सिंह ने भारतीय मंडप का किया उद्घाटन

नई दिल्ली(हि.स.)। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जर्मनी के मैसै फ्रैंकफर्ट में आयोजित हेमटेक्सटाइल 2025 (होम टेक्सटाइल मेला) में भारत मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वैश्विक घरेलू वस्त्र निर्यातकों, आयातकों और निरमातों को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास हासिल करने के लिए आमंत्रित किया। कपड़ा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि इस आयोजन में भारत की उपस्थिति कपड़ा उद्योग जगत में देश की निरंतर बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। इस प्रतिष्ठित वैश्विक होम टेक्सटाइल मेले में सबसे बड़े भागीदार देश के साथ भारत ने नवाचार, स्थिरता और वैश्विक साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।



राज्यों की संस्कृति को समझना युवाओं के लिए महत्वपूर्ण : राज्यपाल

नवीन मेल संवाददाता
रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि किसी विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और अन्य राज्यों की संस्कृति और सोच को समझना युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने कार्यों और उपलब्धियों से न केवल राज्य, बल्कि देश का नाम भी रोशन करें। राज्यपाल 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों के साथ गुरुवार को राजभवन में संवाद कर रहे थे। राज्यपाल ने प्रतियोगिता में युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए उनके उल्लेखनीय



प्रदर्शन और राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ाने के लिए बधाई दी। उन्हें सम्मानित करते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के प्रतिभागियों ने राज्यपाल से अपने अनभुव साझा किए। स्वाति राज ने कहा कि उन्होंने विकसित भारत 2047 पर अपने विचार रखे। तीन मिनट के सम्बोधन के क्रम में

पोषण, जीरो हंगर, कानून-व्यवस्था, विरासत, युवा रोजगार और अमृतकाल जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। शुभांगी राज ने कहा कि उन्होंने विकास भी, विरासत भी, पर प्रस्तुति दी। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ संवाद और उनके साथ भोजन को अपने जीवन का गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण बताया। ऋषित

ने टेक फॉर विकसित भारत पर प्रस्तुति दी। उन्होंने उल्लेख किया कि एक युवा के दृष्टिकोण से विकसित भारत के लिए तकनीक की भूमिका क्या हो सकती है। उन्होंने अन्य राज्यों के युवाओं की प्रस्तुतियां देखने और उनकी संस्कृति को समझने का अनुभव भी साझा किया। स्वातिका ने कहानी लेखन प्रतियोगिता में

विकसित भारत @2047 पर अपने विचार प्रस्तुत किए और विभिन्न विषयों को रचनात्मकता के साथ समाहित किया। खेल निदेशक संदीप कुमार, राज्य निदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन ललिता कुमारी, डॉ ओपी पाण्डे, राजेश कुमार चौधरी सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री आज पश्चिमी सिंहभूम के दौरे पर रहेंगे

नवीन मेल संवाददाता
रांची। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल. मुरुगन आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के तहत 16 से 18 जनवरी तक पश्चिमी सिंहभूम का तीन दिवसीय दौरा करेंगे। गुरुवार को अपने आगमन पर मंत्री जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य जिले द्वारा हासिल की गई प्रगति पर नजर रखना है। दौरे के दूसरे दिन मंत्री जननाथपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और केज फिशरीज-करंजिया का दौरा करेंगे। इसके बाद सेल खदान का साइट विजिट करेंगे। तीन दिवसीय दौरे का अंतिम



दिन जिला अधिकारियों और विभाग प्रमुखों के साथ बातचीत पर केन्द्रित होगा, जिसके बाद चाईबासा में एडीपी और एक्सिशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एवीपी) के संकेतकों का आकलन करने और एक्सिशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम (एडीपी) के सभी मापदंडों में जिले के विकास को उभारे करने के लिए एक

समीक्षा बैठक होगी। प्रधानमंत्री का एक्सिशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत भर में 112 अपेक्षाकृत पिछड़े और दूरराज के जिलों के विकास को गति देना है। कमजोर नागरिकों के उत्थान के लिए परिकल्पित, एडीपी विकास के 81 संकेतकों में मापन योग्य प्रगति पर केन्द्रित है, जो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और बुनियादी ढांचा रूपी पांच महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है। इस कार्यक्रम का टोस प्रभाव पड़ा है, जिससे लाखों लोगों के जीवन में सुधार आया है और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राज्यपाल गंगवार से मिले



रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बुधवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज भवन में भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया।

स्पीकर पहुंचे प्रयागराज, महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी

रांची। महाकुंभ में देश-विदेश के लोगों के आने का सिलसिला जारी है। देश के राज्यों से भी लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि विश्व के विशालतम सांस्कृतिक समागम महाकुम्भ के दूसरे दिन आज पवित्र स्नान में डुबकी लगायी। पूजा अर्चना कर भगवान सूर्य से झारखंड वासियों के समृद्ध, खुशहाली और कल्याण की प्रार्थना किया।

नई दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन में शामिल हुए झारखंड के कांग्रेसी

नवीन मेल संवाददाता
रांची। बुधवार को नई दिल्ली 9 ए कोर्टला मार्ग पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए कार्यालय 'इंदिरा भवन' का उद्घाटन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। इस ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही झारखंड युवा कांग्रेस महासचिव वेद प्रकाश तिवारी समेत अन्य नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस संबंध में झारखंड युवा कांग्रेस के महासचिव वेद प्रकाश तिवारी ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञापन जारी कर कहा कि यह नया मुख्यालय कांग्रेस के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस नेताओं ने इसे पार्टी के लिए गर्व का क्षण बताया। खास बात यह है कि भवन उसी स्थान पर बनाया गया है, जहां इसे स्थापित करने की परिकल्पना पार्टी के पूर्वजों ने की थी।



भाजपा नेताओं के चेहरे से हट चुका है मुखौटा : सोनाल शांति

रांची। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भाजपा नेताओं के चेहरे से मुखौटा हट चुका है और जनता ने उनकी असली सूरत देख ली है। शाब्दिक यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के किए गए अपमान से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा संविधान गौरव यात्रा निकालने का दांग कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान के विरोध में भाजपा के मूल संगठन आरएसएस ने खुलेआम पूरे देश में प्रदर्शन किया। बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर के पुतले जलाए। सोनाल शांति ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान खुलेआम संविधान बदलने के नाम पर भाजपा नेताओं द्वारा 400 पर सौदों की मांग जनता से की गई थी, लेकिन जनता ने उनके मंसूबों पर करारा प्रताका जड़ दिया। संविधानिक प्रवधानों का विरोध करने वाली भाजपा इस यात्रा के बहाने जनता के बीच फिर नकारात्मक विचार पेश करने वाली है। भाजपा इस यात्रा के बहाने संविधान बदलने के संदर्भ में जनमत सर्वेक्षण करने का मंसूबा पाले हुए है। आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में सर्वेक्षण की पहली सीढ़ी यह यात्रा होगी।

झारखंड में बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू बाबूलाल मरांडी बने पहले सक्रिय सदस्य

नवीन मेल संवाददाता
रांची। बीजेपी के संगठन महापर्व सदस्यता अभियान के तहत बुधवार को सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की गयी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहले सक्रिय सदस्य बने। इनके अलावा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, अभियान के प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद और महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी का एकमात्र आधार पार्टी के मजबूत और समर्पित कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय हित में यह अति आवश्यक है कि बीजेपी अपने नये और पुराने सभी सदस्यों की सदस्यता और सक्रियता पर बल दे, जिससे पूरी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। मौके पर उपस्थित प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने



सदस्यता अभियान को हर मंडल, हर शक्ति केंद्र, हर बूथ और हर घर में पहुंचाने का आग्रह सभी कार्यकर्ताओं से किया। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि किसी पार्टी का स्तंभ उस पार्टी और क्षेत्र के कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ताओं की सजगता ही चुनाव में हार और जीत तय करती है। महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व से मिलनेवाला हर कार्य रांची महानगर के कार्यकर्ता कर्तव्यनिष्ठ होकर करते हैं। सदस्यता अभियान में भी रांची महानगर के

प्रत्येक कार्यकर्ता ऊर्जा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। पार्टी द्वारा दिये गये किसी भी कार्य को भाजपा कार्यकर्ता बहुत ही तन्मयता से पूरा करते हैं। कार्यक्रम का संचालन बलराम सिंह ने किया। मौके पर शशांक राज, संजीव विजयवर्गीय, राकेश भास्कर, रांची वर्मा, जितेंद्र वर्मा, केके गुप्ता, विश्वजीत सिंह, राजू सिंह और अश्वनी सुखीजा सहित रांची महानगर के पदाधिकारी व मंडल अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

फार्मसी काउंसिल के रजिस्ट्रार को पदमुक्त करने की मांग

रांची। झारखंड फार्मसी छात्र संघ ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर फार्मसी काउंसिल के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर उनके निबंधन को रद्द करने और रजिस्ट्रार के पद से मुक्त करने की मांग की है। संघ ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में बताया कि झारखंड फार्मसी काउंसिल के निबंधक-सह-सचिव प्रशांत कुमार पांडेय का निबंधन झारखंड के साथ बिहार में भी पाया गया है। इनका बिहार में निबंधन क्रमांक 20670 तथा झारखंड में 00083 है। प्रशांत कुमार पांडेय, झारखंड में जन औषध केंद्र के साथ चार अन्य दवा दुकान में भी जुड़े हैं। वहां प्रशांत कुमार पांडेय अपना फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट दिए हैं। बिहार राज्य में भी इनके नाम पर दवा दुकान चल रहा है। यह एक संगीन अपराध की श्रेणी है तथा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 व फार्मसी एक्ट 1948 का उल्लंघन है।

माओवादी, स्प्लिंटर ग्रुप व आपराधिक गिरोह की धमकी मामले में दर्ज करें एफआईआर : डीजीपी

नवीन मेल संवाददाता
रांची। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बुधवार को 16 जिलों के एसपी के साथ नक्सलवाद को लेकर समीक्षा बैठक किए। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक के दौरान डीजीपी ने कहा कि माओवादी संगठन, स्प्लिंटर ग्रुप और अपराधिक गुटों द्वारा धमकी से संबंधित जो भी सूचना पीडित द्वारा दी जाती है, उसमें प्रारंभिक दर्ज किया जाय। साथ ही डीजीपी ने बैठक के दौरान निर्देश दिया कि सभी जिले के एसपी विशेष रूप से नक्सल प्रभावित जिलों में माओवादी, स्प्लिंटर ग्रुप और अपराधिक गुटों के द्वारा आगजनी, तोड़फोड़ से संबंधित दर्ज मामलों को विशेष रूप से समीक्षा कर शीघ्र कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी इसका अनुपालन अपनी देख-रेख में कराना सुनिश्चित करेंगे।



प्रभावी कुर्की जल्ती की कार्रवाई की जाए

डीजीपी ने कहा कि विभिन्न काण्डों में माओवादी, स्प्लिंटर ग्रुप और अपराधिक गुटों के जो भी अभियुक्त फरार हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कुर्की जल्ती की कार्रवाई की जाए। फरार नक्सली और अपराधकर्मी के चल-अचल सम्पत्ति की कुर्की जल्ती की कार्रवाई करना यथाशीघ्र सुनिश्चित करेंगे। एसपी अपराध के माध्यम से अर्जित किये गये सम्पत्तियों को चिन्हित कराते हुए उसका डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

आत्मसमर्पित नक्सली किसी लाभ से वंचित न हो

डीजीपी ने बैठक के दौरान कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध चलते जा रहे अभियान और सेंट्रल पॉलिसी को और प्रभावी बनाने के लिए व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुख्याधार में जोड़ने के लिए साकारात्मक प्रयास सुनिश्चित किया जाय। सरकार द्वारा चलाये जा रहे पुनर्वास योजना के अंतर्गत नक्सलियों के आत्मसमर्पण पश्चात उनके संबंध में यह समीक्षा की जाय की पुनर्वास योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले संपूर्ण लाभ आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिल रही है या नहीं, अगर आत्मसमर्पित नक्सली किसी लाभ से वंचित हैं तो यथाशीघ्र कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार

नवीन मेल संवाददाता
रांची। शहर की बुंदू थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित का नाम मुकेश कुमार महतो बताया गया है। इसके पास से एक पिस्तल और दो गोली बरामद की गई है। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि गुप्त

सूचना मिली कि बुंदू थाना क्षेत्र अन्तर्गत मौसीबाड़ी बुंदू के पास एक अपराधी हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के बाद बुंदू एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ उसे गिरफ्तार किया। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

पूठ एक के शेष

34 में से चार कोल ब्लॉक... अलका तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक में वन एवं पर्यावरण सचिव अरू बक्कर सिद्धिकी, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर, खान सचिव जितेंद्र सिंह, खान निदेशक राहुल सिन्हा एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी समेत कई संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

जोएसटी को लेकर कोयला... साहू की गिरफ्तारी की जाएगी। समाचार लिखे जाने तक छापामारी की जा रही थी। उल्लेखनीय कि गत 29 जुलाई 2024 को भी जोएसटी विभाग ने जोएसटी को लेकर संदीप साहू के यहां छापामारी की थी। आज की छापामारी में विभाग के अरुण टोपों, राजीव रंजन, सतीश कुमार, राजेश कुमार, बबलू सिंह, आशुतोष सहित सदल-बल जवान शामिल थे। एक प्रमुख समुद्री शक्ति के... अहिंता तथा आईएनएस अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का रक्षा उत्पादन 1.25 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है और देश 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है।

दो वर्ष बाद लालिमा लिए मंगल का सूर्य से होगा सामना

आकाश में आज एक सीध में आएंगे मंगल, पृथ्वी और सूर्य

भोपाल (हि.स.)

खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए गुरुवार (16 जनवरी) का दिन बेहद खास होने जा रहा है। इस दौरान आकाश में एक अद्भुत खगोलीय घटना होने जा रही है। इस दिन सौरमंडल का लाल ग्रह मंगल हमारी पृथ्वी और सूर्य की सीध में आ रहा है। इस खगोलीय घटना में मंगल, पृथ्वी और सूर्य एक सरल (सीधी) रेखा में होंगे।

नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घरू ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस खगोलीय घटना को 'मार्स एट अपोजीशन' कहते हैं। इस समय मंगल चमकदार लालिमा के साथ बिना दूरबीन

के देखा जा सकेगा। यह खगोलीय घटना दो साल के बाद हमें आकाश में देखने को मिलेगी। इससे पूर्व यह घटना 8 दिसंबर 2022 को हुई थी। सारिका ने बताया कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह मंगल सूर्यास्त के बाद पूर्वी आकाश में उदित होगा और मध्यरात्रि में आपके सिर के ठीक ऊपर पहुंच जाएगा। अगले दिन सुबह पश्चिम में अस्त होगा। अपोजीशन की यह खगोलीय घटना इसलिये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल को सारी रात आकाश में देखा जा सकेगा। अपोजीशन को इस घटना में पृथ्वी के एक ओर मंगल होगा, तो दूसरी ओर सूर्य होगा। ये तीनों खगोलीय पिंड एक सीध में होंगे। इस समय मंगल की पूरी डिस्क सूर्य के प्रकाश से चमक रही होगी, जिससे इसकी पूरी सतह देखी जा सकेगी।



सारिका ने बताया, पूरी रात चमकता दिखेगा लाल ग्रह

सारिका ने बताया कि 'मार्स अपोजीशन' की घटना लगभग 26 माह के अंतराल पर होती है। इससे पहले वर्ष 2003 का मार्स अपोजीशन बहुत खास था, जिसमें मंगल 60,000 साल बाद इतना निकट आया था और अब इतना नजदीक वर्ष 2287 में आएगा। उन्होंने कहा कि मंगल दर्शन का यह अच्छा अवसर है। इसलिए इसे देखने से चूकिए मत, क्योंकि इसके बाद यह घटना दो साल बाद 19 फरवरी 2027 को होगी।

श्रीलंका के राष्ट्रपति की बीजिंग में शी जिनपिंग से हुई मुलाकात

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके चीन की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हितों पर चर्चा की। दिसानायके उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार सुबह बीजिंग पहुंचे। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शी जिनपिंग और दिसानायके से हुई बातचीत की संक्षिप्त जानकारी दी है। खबर में बातचीत का विवरण साझा नहीं किया गया है। श्रीलंका के अधिकारियों का कहना है कि शी जिनपिंग से बातचीत होने के बाद अब दोनों पक्षों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चार आतंकवादी मारे गए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के सामान्य क्षेत्र स्पिनवाम में चार आतंकवादियों को मार गिराया। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने इसकी पुष्टि की। आईएसपीआर ने कहा कि सुरक्षाबलों को यह कामयाबी 14/15 जनवरी की रात खुफिया आभासित अभियान में मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने अनाथालय ट्रस्ट मामले में खालिदा को किया बरी

ढाका। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित जिया अनाथालय ट्रस्ट में हुए भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया को बुधवार को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद रफअत अहमद ने सुबह करीब पाँच बजे फैसला सुनाया।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल हिरासत में, ढाई घंटे हुई पूछताछ

● मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा पर केंद्रित रही पूछताछ
सियोल (हि.स.)

दक्षिण कोरिया के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) के अधिकारियों ने बुधवार को सुबह हिरासत में लिये गए राष्ट्रपति यून सुक येओल से पूछताछ शुरू कर दी। येओल को राष्ट्रपति अवास से हिरासत में लेने के बाद ग्योंगगी प्रांत के ग्वाचेओन स्थित सीआईओ मुख्यालय ले जाया गया। यहां ढाई घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। सीआईओ के डिप्टी प्रमुख ली जे-सेउंग के नेतृत्व में अधिकारियों ने दिन में करीब 11:00 बजे यून सुक येओल से पूछताछ शुरू की। इस दौरान येओल के वकील भी मौजूद रहे। द कोरिया टाइम्स समाचार पत्र के अनुसार येओल से पूछताछ मुख्यतः उनकी मार्शल लॉ की



अल्पकालिक घोषणा पर केंद्रित है। यह घोषणा येओल ने तीन दिसंबर की रात की थी। इस बीच विश्व के तेवर देख यह घोषणा वापस ले ली गई। विपक्ष ने मोर्चाबंदी कर नेशनल असेंबली की पूर्ण बैठक आहूत कर येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इस पर मतदान हुआ। मतदान में राष्ट्रपति को तगड़ा झटका लगा और महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद इसे संवैधानिक अदालत भेजा गया। संवैधानिक अदालत में मंगलवार को इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। यून सुक येओल हिरासत में लिये जाने

वाले पहले कोरियाई राष्ट्रपति हैं। जांच अधिकारियों को 48 घंटों के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि हिरासत में पूछताछ जारी रखने के लिए औपचारिक गिरफ्तारी वारंट दायर किया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए। सीआईओ ने आज दिन में 10:33 बजे हिरासत वारंट निष्पादित किया। सीआईओ ने कहा कि दिन में 1:30 बजे तक पूछताछ के पहले सत्र में येओल ने बयान देने से इनकार कर दिया। इसलिए पूछताछ रिकॉर्ड नहीं की गई। अब सीआईओ के वरिष्ठ अभियोजक ली डे-ह्वान पूछताछ करेंगे।

भारतीयों में मोटापे से होने वाली बीमारियों का बेहतर इलाज करना है उद्देश्य

नए सिरे से परिभाषित की गई मोटापे की परिभाषा

नई दिल्ली (हि.स.)

● अब दो स्टेज से होगा इसका आकलन



डायबिटीज और एंडोक्रिनोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। यह शोध अक्टूबर 2022 से जून 2023 के बीच किया गया है। इसमें युवा, बुजुर्ग और महिलाओं में मोटापे से होने वाली अन्य बीमारियों का अध्ययन किया गया है। इसमें डायबिटीज, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। बीते 15 सालों से भारत में बीएमआई के

आधार पर मोटापे को नापा जाता है। बाँडी मास इंडेक्स मोटापे का पता लगाने का एक तरीका है जिसमें ऊँचाई और वजन के आधार पर शरीर में वसा का एक माप है। 23 से 30 का बीएमआई अधिक वजन का संकेत देता है। 30 से अधिक का बीएमआई मोटापे का संकेत देता है। नए शोध में पेट के आसपास की चर्बी (एब्डोमिनल ओबेसिटी) को

भी एक स्टेज में शामिल किया गया है, जो कई बीमारियों का कारण हो सकती है। पंचश्री से अलंकृत एवं फोर्टिस सी-डीओसी अस्पताल में मधुमेह और एंडोक्रिनोलॉजी के कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक डॉ अनूप मिश्रा ने बताया, भारत में मोटापे की दर खतरनाक गति से बढ़ रही है, जो शहरी क्षेत्रों से आगे तक फैल रही

है। ये दिशा-निर्देश अभूतपूर्व और लागू करने में आसान हैं, जो पूरे भारत में मोटापे से संबंधित स्थितियों के प्रबंधन के लिए चरण-विशेषित रणनीति प्रदान करते हैं। ये वजन घटाने के उपचारों को जल्दी शुरू करने में आसान है। नई दिल्ली के एम्स में मेडिसिन के प्रोफेसर और दिशा-निर्देशों के मुख्य सह-लेखक डॉ नवल विक्रम ने

बताया कि भारतीयों के लिए मोटापे की एक अलग परिभाषा संबंधित बीमारियों का जल्द पता लगाने और लक्षित प्रबंधन रणनीतियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन हमारी समझ में महत्वपूर्ण अंतराल को भरता है और भारतीय आबादी में मोटापे से निपटने के लिए एक स्पष्ट, तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

भारत में अब मोटापे की परिभाषा को बदला गया है। पहले सिर्फ बाँडी मास इंडेक्स (बीएमआई) से मोटापे का पता चलता था, लेकिन अब इसके लिए दो स्टेज निर्धारित किए गए हैं। नेशनल डायबिटीज ओबेसिटी एंड कॉलेस्ट्रॉल फाउंडेशन (एन-डॉक), फोर्टिस अस्पताल और एम्स दिल्ली ने मोटापे की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसका मकसद भारतीयों में मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को बेहतर ढंग जानने और सही इलाज करना है। अखिल भारतीय आधुनिक संस्थान (एम्स) ने बुधवार को नई परिभाषा जारी करते हुए बताया कि मोटापे को अब दो स्टेज के हिसाब से परिभाषित किया गया है। इसको लेकर एक रिसर्च को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दी लांसेट


को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसका मकसद भारतीयों में मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को बेहतर ढंग जानने और सही इलाज करना है। अखिल भारतीय आधुनिक संस्थान (एम्स) ने बुधवार को नई परिभाषा जारी करते हुए बताया कि मोटापे को अब दो स्टेज के हिसाब से परिभाषित किया गया है। इसको लेकर एक रिसर्च को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दी लांसेट

को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसका मकसद भारतीयों में मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को बेहतर ढंग जानने और सही इलाज करना है। अखिल भारतीय आधुनिक संस्थान (एम्स) ने बुधवार को नई परिभाषा जारी करते हुए बताया कि मोटापे को अब दो स्टेज के हिसाब से परिभाषित किया गया है। इसको लेकर एक रिसर्च को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दी लांसेट

को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसका मकसद भारतीयों में मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को बेहतर ढंग जानने और सही इलाज करना है। अखिल भारतीय आधुनिक संस्थान (एम्स) ने बुधवार को नई परिभाषा जारी करते हुए बताया कि मोटापे को अब दो स्टेज के हिसाब से परिभाषित किया गया है। इसको लेकर एक रिसर्च को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दी लांसेट

को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसका मकसद भारतीयों में मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को बेहतर ढंग जानने और सही इलाज करना है। अखिल भारतीय आधुनिक संस्थान (एम्स) ने बुधवार को नई परिभाषा जारी करते हुए बताया कि मोटापे को अब दो स्टेज के हिसाब से परिभाषित किया गया है। इसको लेकर एक रिसर्च को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दी लांसेट

को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसका मकसद भारतीयों में मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को बेहतर ढंग जानने और सही इलाज करना है। अखिल भारतीय आधुनिक संस्थान (एम्स) ने बुधवार को नई परिभाषा जारी करते हुए बताया कि मोटापे को अब दो स्टेज के हिसाब से परिभाषित किया गया है। इसको लेकर एक रिसर्च को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दी लांसेट



बाइडेन ने अमेरिका में एआई से जुड़े कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

वाशिंगटन (हि.स.)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)

पर एक महत्वपूर्ण आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए अमेरिका में उन्नत (एडवॉन्स) एआई के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे, जैसे बड़े पैमाने पर डाटा केंद्र और नई स्वच्छ ऊर्जा सुविधाएँ, का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस कार्यकारी आदेश में कहा

गया है कि रक्षा और उर्जा विभाग उन स्थानों की पहचान करेंगे, जहाँ निजी कंपनियाँ एआई डाटा केंद्र बना सकें। इसके अलावा, इन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे अपने डाटा केंद्र के लिए पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करें। एक बयान में, बाइडेन ने कहा कि एआई का राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और अगर जिम्मेदारी से इसका उपयोग किया जाए, तो अमेरिकियों के जीवन में सुधार करने की भारी क्षमता होगी। इससे बीमारियों का इलाज करने से लेकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर समुदायों को सुरक्षित रखने तक का काम किया जा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि 'एआई के मुद्दे पर हम अपनी बढ़त को हलके में नहीं ले सकते। जब भविष्य को परिभाषित करने वाली प्रौद्योगिकी की बात आती है, तो हम अमेरिका को कमजोर नहीं होने देंगे। न ही हमें महत्वपूर्ण पर्यावरण मानकों और स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी की रक्षा के लिए हमारे साझा प्रयासों का त्याग करना चाहिए।

शेख हसीना की भतीजी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली (हि.स.)। भारत में शरण पा रही

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शेख हसीना की भतीजी ब्रिटेन की वित्त मंत्री द्यूलिप सिद्धीकी को करार झटका लगा है। उन्होंने ब्रिटेन के वित्त मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर लेबर पार्टी की सांसद एम्मा रेनाल्डस को नया वित्त मंत्री बनाया गया है। उधर,

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद युनुस ने ब्रिटेन की सरकार से द्यूलिप सिद्धीकी की संपत्तियों की जांच की मांग की है। साथ ही, आरोप लगाए हैं कि अपदस्थ शेख हसीना द्वारा बांग्लादेश में किए गए कथित घोटाले की संपत्तियाँ द्यूलिप सिद्धीकी के पास हो सकती हैं।



यमन के हतियों का दावा

हमने इजरायल के बिजली संयंत्र पर दमगे मिसाइल

सना (आईएनएस)। यमन के हतियों ने एक बयान में कहा कि उसने दक्षिणी इजरायली बंदरगाह शहर इलात में एक बिजली संयंत्र को "पंखों वाली मिसाइल" का इस्तेमाल करके निशाना बनाया। हतियों सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने अल-मसीरा टीवी पर प्रसारित बयान में कहा, "हमला सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया गया। सरिया ने कहा कि उसके गुट ने इजरायल के खिलाफ एक और हमला किया है, जिसमें तेल अवीव शहर में बम लदे कई ड्रोन के साथ महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कसम खाई कि इजरायल के खिलाफ उनके समूह के हमले "तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजरायल गाजा में युद्ध बंद नहीं कर देता और अपनी घेराबंदी नहीं हटा लेता। इलियट में पावर स्टेशन और तेल अवीव में ठिकानों पर हमले हतियों समूह द्वारा इजरायली रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बैलिस्टिक रॉकेट हमले शुरू करने की जिम्मेदारी लेने के कुछ घंटों बाद हुए। इससे पहले इजरायली मीडिया ने दावा किया कि हतियों रॉकेट हमले को इजरायली वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिया गया। इजरायली सैन्य बयान के अनुसार, यमन की हतियों ने मंगलवार को तड़के इजरायल पर मिसाइल हमले, जिससे तेल अवीव और कब्जे वाले पश्चिमी तट पर स्थित कुछ इजरायली बस्तियों सहित व्यापक क्षेत्रों में सायरन बजने लगे।

'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है हमारा देश : सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी

● जनरल द्विवेदी ने पुणे में सेना दिवस परेड की सलामी लेकर सैनिकों में भरा जोश

पुणे (हि.स.)

थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को पुणे में सेना दिवस परेड की सलामी ली। उन्होंने देश की सीमाओं पर तैनात जवानों पर भरोसा जताते हुए कहा कि आज हमारा देश नए युग की दहलीज पर खड़ा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर सुचारु रूप से आगे बढ़ रहा है। परेड में विभिन्न मार्चिंग दस्तों और हथियारों के जरिए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। सेना दिवस परेड वर्ष 1949 में फील्ड मार्शल केएम करिअप्पा की भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ के रूप में नियुक्ति की याद दिलाती है, जो भारत के स्वतंत्रता के बाद के सैन्य नेतृत्व का प्रतीक है। थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश को प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए रिस्कर और सुनिश्चित



अग्निवीर महिला मार्चिंग टुकड़ी ने अनुशासन का किया प्रदर्शन

महिला सशक्तीकरण और उत्कृष्टता के महत्वपूर्ण प्रदर्शन में पहली बार अग्निवीर महिला मार्चिंग टुकड़ी ने भारतीय सेना में महिलाओं की उल्लेखनीय यात्रा को आगे बढ़ाया। 'नारी शक्ति' की थीम के अनुरूप अग्निवीर महिला मार्चिंग टुकड़ी ने महिला सैन्य पुलिस की ताकत, अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन किया। कैप्टन संस्था राव एच की कुशल कमान के तहत यह टुकड़ी भारतीय सेना में महिलाओं के नेतृत्व और प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें भारतीय सेना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे विश्वास है कि हम भारतीय सेना को एक आधुनिक, चुस्त, प्रौद्योगिकी सक्षम और भविष्य के लिए तैयार बल बनाने के लिए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर स्थिति स्थिर लेकिन संवेदनशील है। हमारी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। उत्तरी सीमाओं पर आधुनिक उपकरण और महत्वपूर्ण तैयार बल बनाने के लिए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी

अब ओली सरकार की आयु अधिक नहीं : पुष्प कमल प्रचंड



● माओवादी संसदीय दल के कार्यालय में हुई विपक्षी दलों की बैठक

काठमांडू (हि.स.)

नेपाल के विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद नेताओं ने प्रधानमंत्री केपी ओली और उनकी सरकार की आलोचना की है। प्रमुख विपक्षी नेता पुष्प कमल दहाल सरकार की आयु अधिक नहीं है। माओवादी संसदीय दल के कार्यालय में बुधवार को पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में माओवादी

के अलावा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी और आम जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही। बैठक में ओली सरकार द्वारा संसद की बैठक नहीं बुलाने और अध्यक्षता के माध्यम से शासन करने का आरोप लगाया गया। साथ ही, सरकार के 6 महीना पूरा होने पर भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होने का आरोप भी लगाया गया। प्रचंड ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली के रथवे से सत्ताह्वं दलों में अस्तित्व चरम पर पहुंच गई है। नेपाली कांग्रेस के बड़े नेताओं का सरकार के विरोध में सार्वजनिक बयान आ रहा है।

